

WHERE'S YOUR INSPIRATION TAKING YOU NEXT?

Drive home your favourite NEXA car and explore new horizons.

CREATE. INSPIRE.



3 years
100 000 km
WARRANTY*
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

CONSUMER OFFERS OF UP TO ₹1 90 000#

EXCHANGE BONUS OF UP TO ₹1 00 000#

PER LAKH EMI STARTING FROM ₹1 470#

ADDITIONAL SCRAPPAGE BONUS IS AVAILABLE AGAINST VALID CERTIFICATE OF DEPOSIT.



SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU



E-BOOK TODAY @ WWW.NEXAEXPERIENCE.COM



For detailed T&C kindly visit your nearest dealership. Features and accessories shown may not be a part of the standard fitment. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. All offers are brought to you by NEXA dealers only. Offers and features may vary subject to the model and variant purchased. Maruti Suzuki reserves the right to withdraw offers at any point in time without any advance notice. All offers are applicable till 28th February '25 or till stocks last whichever is earlier. Offers mentioned are applicable on available stock of 2024 make. *3 years or 100 000 km whichever is earlier. #Above scheme is as per SBI Green Loan structure (eligible models: Strong Hybrid). Above mentioned finance offering is an indicative offering as offer may vary basis customer profile, geography, credit score etc. All loans at the sole discretion of the financier. Commercial usage vehicle funding not covered in the above mentioned scheme.

विचार बिन्दु

जिसने निश्चय कर लिया, उसके लिए बस करना बाकी रह जाता है।
—इटैलियन कहावत

काश! मुझे यह नहीं लिखना पड़ता कि मेरा माथा शर्म से झुका हुआ है!

मेरा माथा शर्म से झुका हुआ है। यह लिखकर भी मैं अपनी पूरी व्यथा का एक बहुत छोटा अंश ही सम्प्रेषित कर पा रहा हूँ। मैं जन्मजात भारतीय हूँ और मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है? घमण्डी, बड़बोले, बदमिजाज और अमानवीय डोनाल्ड ट्रम्प के अमरीका ने जिस वहशी और अपमानजनक तरीके से मेरे एक सौ चार नागरिक बंधुओं को भारत भेज कर हमारे स्वाभिमान को चकनाचूर किया है वह जितना दुखद है उससे भी ज्यादा दुखद और लज्जाजनक यह है कि हमारे सरकारी वक्तव्य ने अमरीका के इस कृत्य को सहज स्वाभाविक बताया है। किसी भी संकट की घड़ी में हम अपने देश की सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि वह हमारी रक्षा के लिए, हमारा मान बचाने के लिए आगे आएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार मुंह में दही जमाए बैठी है, जैसा वह पिछले काफी समय से करने लगी है। जब उसे अपना गुणगान करना होता है, बड़-चड़कर बातें करनी होती है, विपक्षियों पर प्रहार करना होता है, वर्तमान की असफलताओं का ठीकरा 1964 में दिवंगत मोदी चुके जवाहर लाल नेहरू के माथे फोड़ना होता है तब उसकी मुखरता देखते ही बनती है। हम विश्व गुरु हो जाते हैं, दुनिया की सुर्यापंक्त बन जाते हैं, दुनिया के बड़े नेता हमारे नेता के लीन मित्र प्रचारित कर दिये जाते हैं, दुनिया भर के देशों में भाड़े की भीड़ जुटा कर अपनी जयजयकार करवा ली जाती है लेकिन जब देश पर किसी भी तरह का कोई संकट आता है तो हम मौन हो जाते हैं। और या फिर कोई इतर नाटक कर समस्या से ध्यान बंटाने का बेहूदा प्रयास करने लग जाते हैं। इस बार भी यही हुआ है लेकिन इस बार तो जैसे अति ही हो गई है।

अमरीका ने वहां अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को जिस अमानवीय और अपमानजनक तरीके से भारत भेजा उसके बारे में जानकर किसी भी भारतवासी का खून खौल सकता है। एक अमरीकी सैन्य विमान में 36 घण्टे से भी अधिक समय तक हाथों में हथकड़ी और पांवों में जंजीर बंधे पंजाबी लोगों को विमान में अपनी पगड़ी तक उतारने को मजबूर किया गया। अमरीकी सैन्य विमान को दिल्ली में नहीं अमृतसर में उतारा गया और मीडिया को उसके पास भी नहीं फटकने दिया गया। यहीं यह भी याद कर लें कि अमरीका में अवैध रूप से केवल भारतीय ही नहीं रहते रहे हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार अमरीका में लगभग ढाई लाख चीनी भी अवैध रूप रह रहे हैं। लेकिन उनके साथ अमरीका ने ऐसा अपमानजनक बर्ताव नहीं किया। इसकी एक वजह शायद यह भी है कि दुनिया के किसी भी देश में अगर चीनी नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो चीन तुरंत उस देश के कुछ नागरिकों को अपने देश की जेलों के भीतर कर देता है। चीन ने अमरीका के अनेक नागरिकों को सीआईए के लिए जासूसी करने या नशीली दवाएं बेचने के अपराध में जेल में बन्द कर रखा है, इसलिए अवैध रूप से अमरीका में रह रहे चीनी नागरिकों को किसी सैन्य विमान में हथकड़ियाँ-बेड़ियों में जकड़ कर चीन लौटाने की बात अमरीका शायद सोच भी नहीं सकता। वैसे सवाल यह भी है कि अमरीका अपने देश से अवैध नागरिकों को बाहर निकाले, यह तो ठीक लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अमानवीय और अपमानजनक तरीका अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वह हमने अपनी औकात बताना चाह रहा था?

“उसने कुछ अन्य देशों के साथ भी ऐसा ही करना चाहा। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक छोटा-सा देश है कोलंबिया। जनसंख्या मात्र पांच दशमलव दो करोड़। अर्थव्यवस्था भी कोई खास बड़ी नहीं, दुनिया में 39 वें नम्बर पर। याद रखना कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बताते नहीं थकते हैं। अमरीका ने एक मालवाहक जहाज सी-17 से जब कोलंबियाई नागरिकों को कोलंबिया भेजा तो वहां के राष्ट्रपति गुस्तावोपेट्रो ने उस अमरीकी विमान को अपने यहां उतरने देने की अनुमति देने से मना करने का साहस दिखाया। पेट्रो ने कहा, प्रवासी अपराधी नहीं होता है और उसके साथ मनुष्योचित गरिमामापूर्ण बर्ताव किया जाना चाहिए। यही वजह है कि मैंने उन अमरीकी सैन्य वायुयानों को लौटा दिया है जो कोलंबियाई प्रवासियों को ला रहे थे। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के प्रवासी ऐसे देश में रहें जो उन्हें अपने यहां नहीं रखना चाहता है, लेकिन अगर वह देश उन्हें हमारे यहां भेजना चाहता है तो वह उन्हें उनके और मेरे देश के प्रति सम्मान और गरिमा के साथ भेजे। हम अपने साथी नागरिकों का स्वागत बिना उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किए, नागरिक विमानों में करेंगे। कोलंबिया का सम्मान बना रहे!” और अमरीकी विमान हवा में चक्कर लगाकर लौट गया। इसके बाद उस छोटे-से देश कोलंबिया ने अपने यहां से दो पैसंजर वायुयान अमरीका भेजे और अपने नागरिकों को सम्मान अपने यहां बुलाया। और केवल इतना ही नहीं, जब कोलंबियाई नागरिकों को लेकर वे विमान वहां की राजधानी बोगोटा पहुंचे तो खुद राष्ट्रपति गुस्तावोपेट्रो उस जहाज के भीतर गए और अपने नागरिकों से कहा, “अब आप आजाद हैं और अपनी मातृभूमि पर हैं, आप निराश न हों। सरकार आपके लिए हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर कोलंबिया में इज्जत की जिंदगी जीने में मदद करेगी। यह होती है एक जिम्मेदार सरकार। हमने क्या किया? अपने नागरिकों को अपमानित होने दिया। बेशक उनमें से बहुत सारे लोग गलत तरीकों से अमरीका गए थे। बहुत संभव है कि बहुत सारे गलत तरीकों से स्वेच्छा से न गए हों और ठगी के शिकार हुए हों। विचारणीय यह भी है कि जिस देश का मूल मंत्र जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपिगरीयसी है उस देश के नागरिक, और उस देश के नागरिक जहां हर इलाके में यह कथन प्रचलित है कि चाहे हम रूखा-सूखा खा लेंगे लेकिन अपना इलाका छोड़ कर अन्यत्र नहीं जाएंगे, वे क्यों अवैध तरीकों से अमरीका जाने की जुगत भिड़ते हैं, और अगर जा पाने में सफल हो जाते हैं तो भी वहां निहायत अमानवीय हालात में रह कर अपना पेट पालते हैं! आप असंवेदनशील होकर बहुत आसानी से कह सकते हैं कि वे डॉलर की चकाचौंध में यह सब करते हैं, यथार्थ इतना सपाट नहीं है। असल में हम अपने नागरिकों के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा कर पाने में बुरी तरह नाकामयाब रहे हैं। भले ही चुनावों के दौरान हमने करोड़ों नौकरियां देने के वादे किए हों, वे वादे मूर्त रूप ले पाते इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। ऐसे में अगर हमारे नागरिक इधर उधर की कुंजुत भिड़ते हैं तो गुस्से के लहू लहू कर रहे हैं। और फिर इसे सबके ऊपर, अंततः तो वे भारतीय हैं और उनकी परवाह अगर उनका अपना देश नहीं करेगा तो कौन करेगा? कोलंबिया के राष्ट्रपति अपने नागरिकों को आश्चर्य प्रदान कर सकते हैं, हमारे बड़े नेताओं में यह संवेदनशीलता और मानवीयता क्यों नहीं है?

बेशक अमरीका एक शक्तिशाली देश है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई उसकी ममाना की कर झुका कर स्वीकार कर ले। जरा देखें मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया रिनासबाम ने ट्रम्प को क्या कहा है। उनका कहा एक-एक शब्द गौर तालब है, तो, आपने दीवार बनाने के लिए वोट दिया... खैर, प्यारे अमेरिकियों, भले ही आपको भूगोल के बारे में ज्यादा जानकारी न हो, क्योंकि अमेरिका आपके लिए आपका देश है, महाद्वीप नहीं, इसलिए यह जरूरी है कि आप पहली ईंट रखने से पहले ही पता लगा लें कि उस दीवार के पार 7 अरब लोग हैं। लेकिन चूंकि आप वास्तव में 'लोग' शब्द नहीं जानते, इसलिए हम उन्हें 'उपभोक्ता' कहेंगे। 7 अरब उपभोक्ता 42 घंटे से भी कम समय में अपने को सैमसंग या हुआवेई डिवाइस से बदलने के लिए तैयार हैं। वे लेवी की जगह ज़ाय या मासिमोड्टी भी ले सकते हैं। छह महीने से भी कम समय में, हम आसानी से फ़ोर्ड या शेवरले की कारें खरीदना बंद कर सकते हैं और उनकी जगह टोयोटा, किआ, माज़्दा, होंदा, हुंडई, वोल्वो, सुवार्क, रेनॉल्ट या बीएफएडब्ल्यू ले सकते हैं, जो तकनीकी रूप से उनके द्वारा उत्पादित कारों से बेहतर हैं। वे 7 बिलियन लोग डायरेक्ट टीवी की सदस्यता लेना भी बंद कर सकते हैं, और हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन हम हॉलीवुड की फिल्मों देखना बंद कर सकते हैं और अधिक लैटिन अमेरिकी या यूरोपीय प्रोडक्शन देखना शुरू कर सकते हैं, जिनमें बेहतर गुणवत्ता, संदेश, सिनेमाई तकनीक और सामग्री है। हालांकि यह अविश्वसनीय लग सकता है, हम डिज्नी को छोड़ सकते हैं और कैनकन, मैक्सिको, कनाडा या यूरोप में एक्सकेरेट रिसॉर्ट जा सकते हैं: दक्षिण, पूर्वी अमेरिका और यूरोप में अन्य बेहतर गंतव्य हैं। और भले ही आपको विश्वास न हो, मैक्सिको में भी मैडकॉनलड्स से बेहतर बर्ग हैं और उनमें बेहतर पोषण सामग्री है। क्या किसी ने अमेरिका में पिरामिड देखे हैं? मिश्क, मैक्सिको, पेरू, ग्वाटेमाला, सूडान और अन्य देशों में अविश्वसनीय संस्कृतियों वाले पिरामिड हैं। जानें कि प्राचीन और आधुनिक दुनिया के अजूबे कहां हैं... उनमें से कोई भी अमेरिका में नहीं है... ट्रम्प पर शर्म आती है, उन्होंने इसे खरीदा और बेचा होगा! हम जानते हैं कि एडिडास मौजूद है, न कि केवल नाइकी और हम पैनम जैसे मैक्सिकन टेनिस जूते पहनना शुरू कर सकते हैं। हम जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि अगर ये 7 बिलियन उपभोक्ता उनके उत्पाद नहीं खरीदते हैं, तो बेरोजगारी होगी और उनकी अर्थव्यवस्था (नस्लवादी दीवार के भीतर) इतनी ढह जाएगी कि वे हमसे इस बदरसत दीवार को तोड़ने की भीख मांगेंगे। हम ऐसा नहीं चाहते थे लेकिन... आप दीवार चाहते हैं, आपको दीवार मिलती है। ईमानदारी से आभार के साथ।

मैक्सिको की राष्ट्रपति ने अमरीका को उसकी आर्थिक सीमाएं बताते हुए बेबाक धमकी दे डाली। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा सारा जोर अपने देश के अल्पसंख्यकों की रोजी-रोटी छीनने तक सीमित रह जाता है। अमरीका जैसा देश हमारे राष्ट्रीय सम्मान को ध्वस्त करे तो हम ऐसा कोई प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। काश! ऐसा साहस हमारी सरकार ने भी दिखाया होता। तब मुझे यह नहीं लिखना पड़ता कि मेरा माथा शर्म से झुका हुआ है।

—अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)



राजेन्द्र भागवत

5 फरवरी 2025 को तीन प्रमुख घटनाएं हुईं— पहली, दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान, दूसरी, प्रयागराज में चल रहे कुंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और उनके द्वारा संगम पर किया नौका विहार और तीसरी, अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे 104 भारतीयों को लेकर अमेरिका के वायु सेवा के विमान को अमृतसर पहुंचना। इन तीन मुख्य घटनाओं में से एक का सभी राष्ट्रीय चैनलों पर भरपूर प्रसारण किया गया, विशेष कर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संगम में डुबकी लगाने के वीडियो दिन भर प्रत्येक चैनल पर निरंतर चलते रहे। इन दो घटनाओं के बीच में जो तीसरी घटना थी, वह मीडिया में कोई स्थान नहीं पा सकी। केवल सोशल मीडिया पर अवश्य, कभी कभार कुछ समाचार और वीडियो जरूर आ गए।

वैसे तो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को कई वर्षों से निरंतर यहां भेजा जा रहा है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही विदेशी अवैध नागरिकों के प्रति कड़ा रुख अपनाया गया। ट्रंप ने शायद ग्रहण करते ही स्पष्ट कर दिया था कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को, वे अपने-अपने देश में तत्काल भेज देंगे। स्वदेश रवाना करने

से पूर्व इन्हें अमेरिका में नजर बंद रखा गया।

अमेरिकी वायुसेना का विमान जब 104 भारतीयों को लेकर, अमृतसर में 5 फरवरी को उतरा, तब इन सबके हाथों में हथकड़ी और पांवों में बेड़ियां थीं। इनमें 25 महिलाएं और 12 बच्चे भी थे। इनमें सर्वाधिक संख्या गुजरात, पंजाब हरियाणा के रहने वालों की थी। इस पूरी खबर को सभी प्रमुख मीडिया चैनलों ने लगभग ब्लैकआउट ही कर दिया गया था। जब सोशल मीडिया पर इसके समाचार और वीडियो प्रसारित होने लगे तो फिर संसद में संसद सदस्यों ने इस बारे में सरकार से जवाब तलब किया। इसे 145 करोड़ भारतीयों का अपमान बताया गया। यह विडंबना ही है कि जिस समय प्रधानमंत्री संगम में डुबकी लगा रहे थे, उसी समय 104 भारतीय नागरिकों को कैदियों या आतंकवादियों की तरह भारत लाया गया। मीडिया के किसी भी व्यक्ति को किसी भारतीय से बात नहीं करने दी गई। यह उल्लेखनीय है कि भारत के साथ ही पांच अन्य देशों ग्वाटेमाला, पेरू, मैक्सिको, होंडुरस और कोलंबिया के नागरिकों को भी इसी प्रकार संबंधित देशों में भेजा गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने अमेरिकी वायु सेना के विमान को अपने देश में उतरने की अनुमति नहीं दी और स्पष्ट कह दिया कि हम अपने नागरिकों को अपना विमान भेजकर बुला लेंगे। अमेरिका को इस बात पर सहमति व्यक्त करनी पड़ी। तब, कोलंबिया के रहने वाले अवैध नागरिकों को विशेष यात्री विमान के माध्यम से गरिमा पूर्व तरीके से वापस कोलंबिया लाया गया। कोलंबिया पहुंचने पर वहां के राष्ट्रपति इन लोगों से मिलने वायुयान में गए।

प्रश्न यह है कि जब कोलंबिया के राष्ट्रपति अपने नागरिकों की गरिमा बचाए रखते हुए अमेरिकी सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि कोलंबिया के विमान से उन्हें लाया जाए, तो भारत के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यह एक प्रकार से, भारत की कूटनीतिक असफलता ही मानी जाएगी। यह सही है कि ये सब अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे और उन्हें वहां रहने का कोई अधिकार नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी, भारत की तेजी से होने वाली प्रगति का गुणगान करते रहे हैं और भारत को कई बार विश्व गुरु कहने से भी नहीं चूकते हैं। जिस प्रकार 104 भारतीयों को आतंकवादियों की तरह हथकड़ियों और बेड़ियों में झकड़ कर इन्हें अमानवीय तरीके से भेजा गया, वह किसी भी विश्व गुरु के लिए सम्मान का विषय तो नहीं ही कहा जा सकता।

कहा जाता है कि जिस विमान में भारतीयों को लाया गया, उसमें केवल एक टॉयलेट था और उसका उपयोग करते समय भी उसका दरवाजा बंद नहीं किया गया और न ही संबंधित व्यक्ति को बेड़ियों और हथकड़ियां खोली गईं। प्रधानमंत्री मोदी, स्वयं को ट्रंप का परम मित्र बताते रहे हैं और उन्हें उनके प्रथम नाम 'डोनाल्ड' से सार्वजनिक रूप से संबोधित भी करते हैं और उन्हें गले भी लगाते हैं। इन सब के बावजूद, भारत के प्रति अमेरिका का यह व्यवहार शर्मनाक है। इस बारे में भारत के विदेश मंत्री एवं विदेश मंत्रालय द्वारा किसी भी प्रकार का विरोध प्रकट न करना भी समझ से परे है।

भारत ने किस प्रकार अमेरिका के सामने समर्पण – सा कर दिया है, यह इसी से स्पष्ट होता है कि अमेरिका द्वारा भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर द्यूटी बढ़ाए जाने के निर्णय से पूर्व ही, भारत ने संकेत समझौते हुए अमेरिका के भारत में आने वाली हॉलैंड डेविडसन

मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत कम कर दिया ताकि उनका व्यवसाय यहां पर अधिक हो सके। भारतीयों के साथ अमेरिका में कैसा व्यवहार किया गया, इसकी जानकारी तो जब लौटे हुए यात्री मीडिया से बात करेंगे, तब सामने आएगी। जो समाचार मिल रहे हैं, वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उनके साथ गरिमा पूर्ण व्यवहार तो दूर की बात है, मानवीय व्यवहार भी नहीं किया गया। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 17000 भारतीयों को चिन्हित कर लिया गया है और शीघ्र ही इन्हें भी भेजा जाएगा।

अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को वापस भेजने का क्रम कई सालों से चल रहा है, किंतु इस प्रकार से अपमानजनक रूप में उन्हें भेजने की कार्रवाई अमरीका द्वारा पहली बार की गई है।

कुल मिलाकर, हम तो यही कह सकते हैं कि जिस प्रकार अमानवीय व्यवहार अमेरिका ने भारत के साथ किया है, वह भारत के विश्व गुरु होने के दावे को एकदम ध्वस्त कर देता है। अब भी, भारत के विदेश मंत्रालय को विरोध दर्ज करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश को यह विश्वास दिलाया चाहिए कि वे इस प्रकरण को, जब भी ट्रंप से मिलेंगे, उनके समझ उठाएंगे।

यहां एक और प्रश्न विचारणीय है कि भारत से इतने सारे लोग अवैध रूप से अत्यंत कष्टप्रद परिस्थितियों में क्यों अमेरिका जाना चाहते हैं? कारण स्पष्ट है, भारत में रोजगार और गरिमा पूर्ण जीवन यापन करने के समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हैं।

जो सरकार शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का दावा करती है, और देश को प्रगति के पद पर तेजी से बढ़ाने की बात कर

रही है, उसे यह विचार करना चाहिए कि इतने अधिक लोग क्यों भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं? अमेरिका में अवैध रूप से जाने वालों ने अपनी जमीन-जायदाद बेचकर लाखों रुपए अर्जेंटों को दिए हैं। यदि रोजगार के समुचित अवसर अपने ही देश में उपलब्ध हों तो भला क्यों कोई अपनी मातृभूमि को छोड़कर, विदेश में अमानवीय कष्ट सहने के लिए जाएगा?

गत कुछ समय से देखा गया है कि जब भी देश के समक्ष अटपटी स्थिति उत्पन्न होती है, प्रधानमंत्री मौन धारण लेते हैं, चाहे वह मणिपुर जाने का मामला हो, महाकुंभ में हादसे का मामला हो या फिर भारत के अपमान का मामला। देश उनसे यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी ओर से देश को समझौता कर दें कि वे किसी भी कौम पर भारत के स्वाभिमान को ठेस नहीं लगने देंगे और जब भी किसी के द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा तो वे कड़ी कार्यवाही करेंगे।

सरकार को इसकी भी बहुत गहन जांच करनी चाहिए कि वे कौन लोग हैं जो भारतीय नागरिकों से बड़ी धनराशि लेकर, अच्छे जीवन के सपने दिखाकर अवैध रूप से अमेरिका भेजते रहे हैं? इस विषय पर अच्छी फिल्म 'डकी' भी आई थी, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार भारतीयों को जान जोखिम में डालकर उन्हें विदेश भेजा जाता है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी आपराधिक कार्यवाही करके उन्हें सजा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इनके जाल में फंसेने से भोले-भाले नागरिकों को बचाया जा सके। फिलहाल तो देश इस अपमानजनक व्यवहार पर प्रधानमंत्री और भारत सरकार से कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहा है।

—राजेन्द्र भागवत,
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

प्रभाशंकर उपाध्याय के व्यंग्य संग्रह “इनविजिबल इडियट” का विमोचन

प्रभाशंकर उपाध्याय की यह सातवीं पुस्तक है, इससे पहले उनके नाश्ता मंत्री का गरीब के घर, काग के भाग बड़े सहित चुनिंदा व्यंग्य प्रकाशित हो चुके हैं

सवाई माधोपुर, (निर्स) सूचना केंद्र में सवाई माधोपुर के सांस्कृतिक-साहित्यिक मंच बतलावण के तत्वाधान पर राष्ट्रीय स्तर के व्यंग्यकार कथाकार प्रभाशंकर उपाध्याय की पुस्तक “इनविजिबल इडियट” का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कवि राधेश्याम अटल ने की। विशिष्ट अतिथि हास्य कवि गोपीनाथ चंचित गंगारूप सिटी थे। विमोचन समारोह में वरिष्ठ कवि ताऊ शेखावटी ने भी शिरकत की। उल्लेखनीय है कि प्रभाशंकर उपाध्याय की यह सातवीं पुस्तक है। इससे पहले उनकी नाश्ता मंत्री का गरीब के घर, काग के भाग बड़े, यादों के दरीचे, बेहतरतन व्यंग्य, वहेलिया (उपन्यास), चुनिंदा व्यंग्य प्रकाशित हो चुकी हैं। इस अवसर पर उपाध्याय के व्यक्तिगत एवं रचनाशैली पर सवाई माधोपुर के ख्यातमान कवि विनोद पदरज, पुस्तक की रचनाओं पर बात करते हुए कवि प्रभात ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों



राष्ट्रीय स्तर के व्यंग्यकारप्रभाशंकर उपाध्याय की पुस्तक “इनविजिबल इडियट” का विमोचन हुआ।

से आगाह किया। चिंतक डॉक्टर रमेश वर्मा ने उपाध्याय की रचना धर्मिता पर बात की। वरिष्ठ कवि शिव योगी ने लेखक के साथ एक पुराना संस्मरण साझा किया।

जिला न्यायालय के प्रोटोकॉल एवं प्रशासनिक अधिकारी प्रवीण शर्मा ने नाश्ता मंत्री का गरीब व्यंग्य कथा का स्मरण करते हुए लेखक के साथ अपने अनुभव बताए।

अध्यक्षीय उद्घोषण में राधेश्याम अटल ने व्यंग्य, तंज कटाक्ष व हास्य के अंतर्निहित कलात्मक स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए प्रशंसित किया। प्रभाशंकर उपाध्याय का संचालन लघुकथा लेखक व जिला न्यायालय के सदस्य विजय सिंह राठौड़ ने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए एक परामर्श मंडल बनाया गया है।

■ कवि प्रभात ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से आगाह किया

मोबाइल का चलन ज्यादा है पर हमें पुस्तकों की ओर ही लौटना पड़ेगा। विशिष्ट अतिथि गोपीनाथ चंचित ने उपाध्यायजी के बचपन से जुड़े संस्मरणों को सुनाया। कार्यक्रम में इंटैक के को-ऑर्डिनेटर पदम खत्री, प्रधानाचार्य, दिल्ली शर्मा जिला अध्यक्ष निजि स्कूल संस्थान, चंदा राजवत, चित्रकार सुनीता, शशि, चंद्रशेखर शर्मा, राजेश शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, राम गोपाल गुणसाहिय सहित बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी और छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन लघुकथा लेखक व जिला न्यायालय के सदस्य विजय सिंह राठौड़ ने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए एक परामर्श मंडल बनाया गया है।

“बीकानेर थिएटर फेस्टिवल” को लेकर तैयारियां परवान पर

बीकानेर, (निर्स) बीकानेर में आयोजित होने जा रहे बीकानेर थिएटर फेस्टिवल की तैयारियां परवान पर है। देशभर के चर्चित नाटक बीकानेर शहर के विभिन्न ऑडिटरियम में मंचित किये जायेंगे जिसे बीकानेर के आमजन अपने परिवार सहित निःशुल्क देख सकेंगे। आयोजन समिति के टी एम लालाणी ने बताया कि फेस्टिवल का

हिस्सा बनने के लिए इस बार उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, सोनपल, डाल बीकानेर आण्डे और अपने नाटकों का मंचन करेंगे। फेस्टिवल के दौरान देशभर के लगभग पांच सौ रंगकर्मीयों का जमावड़ा बीकानेर में होगा और भारतीय रंगकर्म के वर्तमान स्वरूप,

उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा की जायेगी। आयोजन समिति के हंसराज डागा ने बताया कि इस बार बीकानेर थिएटर फेस्टिवल के दौरान नाटकों के मंचन के साथ प्रत्येक दिन देश के गुणी रंगकर्मीयों के साथ युवा कलाकारों की मास्टर क्लास का आयोजन भी किया जाएगा। फेस्टिवल से जुड़े अर्थशास्त्री और शिक्षाविद् डॉ.

पी एस वोहरा ने बताया कि इस साल के बीकानेर थिएटर फेस्टिवल में सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता राजेंद्र गुप्ता और हिमानी शिवपुरी अपना प्रसिद्ध नाटक 'जीना इसी का नाम है' प्रस्तुत करेंगे। फेस्टिवल से जुड़े युवा रंगकर्मी सुनील जोशी ने बताया कि बीकानेर थिएटर फेस्टिवल के माध्यम से हमारे शहर के लोगों को थिएटर के प्रसिद्ध

अभिनेताओं से रूबरू होने और अलग अलग तरह के मनोरंजक नाटकों को देखने का मौका मिलेगा। इस दौरान प्रदर्शनी और रंग-चर्चवर्ष भी आयोजित होगी। सभी नाटकों के मंचन में और रंग चर्चाओं में दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क होगा। आयोजन समिति के सदस्य विजय सिंह राठौड़ ने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए एक परामर्श मंडल बनाया गया है।

राशिफल सोमवार 10 फरवरी, 2025

माघ मास शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, सोमवार विक्रम संवत् 2081, पुर्नवसु नक्षत्र सांय 6:01 तक प्रीति योग दिन 10:26 तक, कौलव करण प्रातः 7:12 तक, चन्द्रमा आज दिनांक 11:57 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति : सूर्य-मकर, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-मिथुन, बुध-मकर, गुरु-वृष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या। आज सवार्थसिद्धी योग सांय 6:01 से सूर्योदय तक है। रवि योग सांय 6:01 से आरम्भ होगा। आज सोम प्रदोष व्रत कल्पाद है।

श्रेष्ठ चौघडिया- अमृत : सूर्योदय से 8:14 तक शुभ 9:42 से 11:09 तक, चर 02:05 से 3:33 तक लाभ अमृत 3:33 में सूर्यास्त तक, राहुकाल 7:30 से 9:00 तक, सूर्योदय 7:11 सूर्यास्त 06:11

मेघ
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से सम्पन्न होंगे। व्यावसायिक आय वे वृद्धि होगी।

सिंह
आर्थिक वित्ति मामलों में सन्तुलन बनाये रखना ठीक रहेगा। व्यावसायिक अनुबन्ध प्राप्त हो सकते हैं। व्यावसायिक सम्पर्क बनेंगे। दिन मे मध्याह्न पश्चात अनावश्यक धन खर्च होगा।

धनु
परिवार में आपसी सहयोग सम्बन्ध बना रहेगा। परिवार में परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। दिन के मध्याह्न पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

वृष
आर्थिक कारणों से अटक हुऐ कार्य बनने लगेगा। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। सम्भावित खोत से धन प्राप्त होगा।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगी।

मकर
स्वास्थ्य में सुधार होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। अटक हुऐ कार्य बनने लगेगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक बातों के लिए दिन अच्छा है।

मिथुन
व्यावसायिक कार्य से सम्बन्धित यात्रा सम्भव है। नौकरि पेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

तुला
नवीन कार्यों के सम्बन्ध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुऐ कार्य बनने लगेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों के सम्बन्ध में उचित सोच विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वन हो सकता है। स्वास्थ्य सम्बन्धित चिन्ता दूर होगी।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के कारण भाग-दौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें। आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

वृश्चिक
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्ययधन सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्याह्न पश्चात अटक हुऐ कार्य बनने लगेगा।

मीन
घर परिवार में अतिथियों का आमन रहेगा। परिवार में धार्मिक मौलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

'जे.डी.ए. ने ई-नीलामी में 20 करोड़ रुपए का भूखंड बेचा, कब्जा 2 साल बाद भी नहीं सौंपा'

'विद्याधर नगर सेक्टर-7 में 2200 वर्गमीटर का भूखंड वर्ष 2022 में ई-नीलामी से जे.डी.ए. प्रशासन ने तिरुपति बिल्ड होम को बेचा था'

जयपुर (कास)। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 20 करोड़ रु. में 2200 वर्गमीटर जो भूखंड बिल्डर को बेचा, उसका कब्जा करीब 2 साल बाद भी नहीं संभलवा पाया। उधर भू-माफियाओं ने इस बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कर लिया। इसके बावजूद जे.डी.ए. के जौन-2 के अधिकारी और प्रवर्तन शाखा इस भूखंड को खाली नहीं करवा पाये। बताया जा रहा है कि इस जमीन के पूर्व खातेदार परिवार के साथ किसी व्यक्ति ने वसीयत का हवाला देकर कोर्ट का स्ट्रे ले लिया, परंतु 2 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी बिल्डर को कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित तिरुपति बिल्ड होम ने जे.डी.ए. प्रशासन की कार्यशैली पर खवाल उठाते हुए अफसरों और भू-माफियाओं का गठजोड़ होने का आरोप लगाया।



विद्याधर नगर सेक्टर-7 में विवादित भूखंड पर कोर्ट स्टे होने के बावजूद भी बाउंड्रीवाल के सहारे-सहारे बांस की नई दीवार खड़ी कर ली गई।

का कब्जा उन्हें नहीं संभलवाया। इसी बीच भू-माफियाओं ने बेशकीमती जमीन पर कब्जा जमा लिया। यह मामला जे.डी.ए. ट्रिब्यूनल में पहुंचा, जहां जयपुर विकास प्राधिकरण के जौन-2 के तत्कालीन उपायुक्त ने भी अपना जवाब पेश किया। इस जवाब में कहा गया था कि, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन संख्या 747/1982 में पारित निर्णय 29 नवंबर 1991 की अनुपालना में खातेदार प्रहलाद सहाय शर्मा के पक्ष में 1496.67 वर्गज जमीन की लीज डीड 13 अप्रैल 2016 को जारी की

जा चुकी है। इस 1496 वर्गज जमीन को छोड़ते हुए शेष भूमि में से विद्याधर नगर सेक्टर-7 में भूखंड संख्या आर-2 सुजित किया गया है। जो कि प्रहलाद सहाय शर्मा के मालिकाना हक वाली जमीन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षण के बाद ही जयपुर विकास प्राधिकरण ने 25 मई 2022 को ई-नीलामी की थी, जो कि नियमानुसार पूर्णतया वैध है। इसके बावजूद किसी भंवर सिंह नाम के व्यक्ति ने खातेदार परिवार के साथ वसीयत का हवाला देकर इस जमीन पर स्टे ले लिया। अब कोर्ट स्टे की आड़ में यहां

■ बिल्डर का कहना है कि "हमने जे.डी.ए. से 20 करोड़ में भूखंड खरीदा था, इसमें से 10 करोड़ रु. वर्ष 2022 में ही जमा करवा दिए थे। परंतु इस बेशकीमती जमीन पर भू-माफियाओं ने कब्जा जमाकर अवैध निर्माण भी शुरू कर दिया है। इसके बावजूद जे.डी.ए. प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं रहा।"

■ बताया जा रहा है कि खातेदार प्रहलाद सहाय शर्मा को जेडीए ने वर्ष 2016 में 1496.67 वर्गमीटर जमीन की लीज डीड जारी कर दी थी, इसके बाद जेडीए ने ई-नीलामी रखकर बिल्डर को भूखंड बेचा था

अवैध निर्माण शुरू कर दिया।

बिल्डर का कहना है कि वह कई बार जे.डी.ए. प्रशासन को लिखित शिकायत देकर ई-नीलामी में खरीदे गए भूखंड का कब्जा सौंपने के लिए कह चुका है। अदालत का स्टे होने के बावजूद भी भूमाफिया इस जमीन पर बाउंड्रीवाल, कमरे और अन्य कई अवैध निर्माण कर रहे हैं, परंतु जेडीए की प्रवर्तन शाखा उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

जबकि हमने गत 7 फरवरी 2025 को भी पुनः मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए शिकायत दी थी। परंतु

जेडीए प्रशासन ऐसे चुपकी साधे बैठा है, जैसे कि अफसरों का इन भूमाफियाओं से कोई गठजोड़ हो। बिल्डर का कहना है कि, भू-माफिया ने इस प्लॉट पर अपना दावा जताते हुए कोर्ट में स्थगन (स्टे) की फर्जी याचिका दायर कर दी। इस विवाद को अब दो वर्ष हो चुके हैं, और तिरुपति बिल्ड होम को आज भी अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। स्थिति और गंभीर तब हो गई जब 7 फरवरी को न्यायालय द्वारा स्ट्रे दिए जाने के बावजूद भू-माफियाओं ने दिन-दहाड़े इस प्लॉट पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया।

शादी करवाने का झांसा देकर 3.50 लाख रु. ठगे

जयपुर। कानोता इलाके में शादी कराने का झांसा देकर 3.50 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है।

पुलिस ने बताया कि केशव नगर कानोता निवासी मुकेश कुमार ने मामला दर्ज करवाया कि उसके साथ बिलाल नाम का लड़का काम करता था। बातचीत के दौरान आरोपी बिलाल ने उसे बताया कि उसके माता-पिता शादी करवाने का काम करते हैं। जो उसकी भी शादी करवा देंगे। इसके लिए उन्हें बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, जिसका तरीका भी भेरे पिता ही बताएंगे। पिता ने मिलवाने पर उन्होंने

तेलंगाना से खुली बीडी व मछली का थोक बिजनेस करने की कहा। बिजनेस करवाने के लिए भी अलग-अलग मोबाइल नंबर बताकर रुपए ट्रांसफर करवाने के साथ करीब 3.50 लाख रुपए ले लिए। शादी के लिए सुंदर-सी लड़की देखने की कहकर उसको झूठ बोलकर फांसते रहे। लम्बे समय तक शादी कराने की कहकर बिजनेस के लिए रुपए लेने का झांसा दिया गया। अपने दिए रुपए मांगने पर आरोपियों ने धमकाया। कॉन्टैक्ट करने के लिए आरोपियों के घर जाने पर लॉक लगे मिले।

लोक परिवहन बस ने स्कूटी को टक्कर मारी; महिला की मौत, सहेली घायल

जयपुर (कास)। राजधानी जयपुर में टोंक रोड पर एक लोक परिवहन बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी सहेली घायल हो गई। हादसे के बाद चालक बस लेकर फरार हो गया।

■ हादसे के बाद चालक बस लेकर फरार, पुलिस तलाश में जुटी

अग्रवाल कट पर आगे चल रही स्कूटी को टक्कर मार दी। बस स्कूटी सवार दीटक्कर के बाद पूजा सड़क पर और उसकी सहेली डिवाइडर पर गिर गई। बस पूजा के ऊपर से निकल गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल पूजा को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार शनिवार शाम को करीब 8.30 बजे एक लोक परिवहन बस ने टोंक रोड पर रामदास

मामले की जांच दुर्घटना थाना पुलिस पूर्व कर रही है। हिट एण्ड रन मामले में पुलिस बस और उसके चालक की तलाश कर रही है।

आईसीए आर्ट ने दिल्ली में शोकेस किया 11 सीनियर आर्टिस्ट्स का कलेक्शन

गुलाबी नगरी के 11 सीनियर आर्टिस्ट्स का विशेष कलेक्शन हुआ इंडिया हैबिटेट सेंटर में प्रदर्शित

जयपुर। दुनियाभर से आए अनुभवी आर्ट क्यूरेटर्स, कलेक्टर और आर्टिस्ट्स ने भारत की सभ्यता और संस्कृति के संगम को कैनवास पर निहारना। मौका था दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर के ओपन पाम कोर्ट गैलरी में जयपुर के आईसीए आर्ट गैलरी द्वारा आर्ट एजीबिशन का। आईसीए आर्ट गैलरी और द क्राइस्टस कलेक्शन ने इस आर्ट उत्सव में सम्वेगा आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें जयपुर के 11 सीनियर आर्टिस्ट्स के कलेक्शन को शोकेस किया जा रहा है।



जयपुर के आईसीए और मीच क्राइस्टस की ओर से रविवार को दिल्ली के ओपन पाम कोर्ट गैलरी में प्रदर्शनी आयोजित हुई।

मिनहाज मजूमदार द्वारा क्यूरेटेड इस कला प्रदर्शनी में गुलाबी नगरी के जाने-माने आर्टिस्ट आचार्य व्याकुल, चनरथाम निम्बार्क, राजा बाबू शर्मा, कालू राम पांचाल, हेम बहादुर भुजेल, प्रभाती लाल सैनी, नादास, शैख उस्मान, नदी नारायण पंडित, नन्नू सिंह और शिखर भट्ट के विशेष 51 आर्ट

वर्क्स को डिस्प्ले किया जा रहा है। आईसीए आर्ट गैलरी से अभिनव बंसल ने बताया कि इस आर्ट एजीबिशन को आर्ट लवर्स दिल्ली के सबसे चर्चित और पसंद किए जाने वाला शो में से एक मान रहे हैं। जयपुर के आर्टिस्ट्स

के काम को काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसे में प्रशंसकों में देश की जानी-मानी आर्ट कलेक्टर किरण नादर, इंडिया हैबिटेट सेंटर की डायरेक्टर अलका पांडेय ने सभी आर्टिस्ट्स का प्रोत्साहन किया।

यात्रियों की जेब काटने वाले चार गिरफ्तार

जयपुर (कास)। सिंधी कैप थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड पर यात्रियों के सामान और जेब काटने वाले चार बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सवारियों को डराने-धमकाने के लिए लिए धारदार हथियार ब्लैंड और कटर भी जब्त किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अभित कुमार ने बताया कि सिंधी कैप थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड पर यात्रियों के सामान और जेब काटने वाले हारून उर्फ शाहरुख उर्फ पुडा निवासी भट्टा बस्ती जयपुर, राशिद निवासी उत्तर प्रदेश, लोकेश कुमार जायसवाल निवासी मारसरोवर और अजय शर्मा निवासी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपियों के पास से सवारियों को डराने-धमकाने के लिए लिए रथे धारदार हथियार ब्लैंड और कटर बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है।

इंस्टाग्राम पर धमकी देकर फिरोती मांगने वाला पकड़ा

■ जयपुर पुलिस की विशेष साइबर टीम ने प्रतिष्ठित स्कूल मालिक को गिरफ्तार किया

जयपुर। जयपुर पुलिस की विशेष साइबर टीम थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक प्रतिष्ठित स्कूल के स्वामी को इंस्टाग्राम पर धमकी देकर फिरोती मांगने के मामले में पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कुंवर राठोड़ी ने बताया कि जयपुर पुलिस की विशेष साइबर टीम थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक प्रतिष्ठित स्कूल के स्वामी को इंस्टाग्राम पर धमकी देकर फिरोती मांगने के मामले में प्रदीप कुमार निवासी हसनपुरा जयपुर को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपित का स्कूल प्रबंधन से पूर्व से ही विवाद चल रहा था। यह मामला दिसंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में स्कूल प्रबंधन की ओर से मामला दर्ज करवाया गया था। परंतु स्कूल प्रबंधन में मानवीय आधार पर आरोपित को माफ कर दिया था। ताकि उसके नाबालिग पुत्र के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। हालांकि हाल ही में आरोपित ने कथित रूप से नशे की हालत में स्कूल के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर धमकी भरी टिप्पणियां

पोस्ट की। उसने 50 लाख की फिरोती की मांग की और स्वयं को एक गिरोह का सदस्य बताकर स्कूल मालिक के परिवार के सदस्यों के अपहरण की धमकी दी। साइबर टीम ने मेटा प्लेटफॉर्म-इंस्टाग्राम से प्राप्त तकनीकी इनपुट और विस्तृत लॉग विश्लेषण के आधार पर आरोपी को चिह्नित कर पूछताछ करने के बाद उसे चित्रकूट थाना पुलिस को सौंप दिया गया। जहां चित्रकूट थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 308(2), 352 और 357(2) के तहत उसे गिरफ्तार किया। इस सम्पूर्ण कार्रवाई में साइबर पुलिस थाना पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के एएसआई भोजेश सिंह, हेड कॉन्स्टेबल संजय कुमार, हेड कॉन्स्टेबल जगदीश प्रसाद, कॉन्स्टेबल भूप सिंह एवं कॉन्स्टेबल धर्मेश सिंह शामिल रहे।

जानलेवा हमला करने वाले बदमाश गिरफ्तार

जयपुर (कास)। मालवीय नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला मित्र को लेकर जानलेवा हमला करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने मारपीट में प्रयुक्त चौपटिया वाहन कार को प्रताप नगर थाना इलाके से किराए पर ली गई थी, उसे भी जब्त किया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्वनी गौतम ने बताया कि मालवीय नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो फरवरी को महिला मित्र को लेकर जानलेवा हमला करने के मामले में अभिषेक जांजिड़ और शुभम गुर्जर उर्फ शुभम खेडली को गिरफ्तार किया है और दोनों ही आरोपित मालपुरा गेट इलाके के रहने वाले हैं। वहीं इस मामले में शामिल

लक्की शर्मा उर्फ लोकेश उर्फ चंकू निवासी लालसेट और संजय चौधरी सहित अन्य हमलावरों की तलाश की जा रही है। थानाधिकारी संग्राम सिंह ने बताया कि दो फरवरी को पीडित विशाल शर्मा निवासी देवी नगर सोडाला ने मामला दर्ज करवाया था कि मालवीय नगर कैलाशरी रोड में बिलियर्ड खेलने के लिए वह अपने तीन दोस्तों के साथ आया था और खेल कर जब निक्कल रहे थे। तब लक्की शर्मा नाम के लडके का कॉल कर रोड के दूसरी तरफ बुलाया और जैसे ही वह रोड के दूसरी तरफ गया। जब उसने व उसके दोस्त जो गाड़ी में थे उतर कर मेरे पर लोहे के सरियों से हमला कर कर लुटपाट कर भाग गए थे। पुलिस ने आरोपियों को चिह्नित करते हुए पकड़ा है।

उद्यानों की खस्ता हालत देखकर नाराज हुए आयुक्त, समितियों को गोद दिए जाएंगे पार्क

औचक निरीक्षण के दौरान उद्यानों में गंदगी, टूटे हुए गमले और सूखे पौधे मिले



जयपुर (कास)। हैरिटेज निगम कमिश्नर अरुण हसीजा ने रविवार को लगातार दूसरे दिन शहर के उद्यानों और पार्कों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगहों पर सूखे पौधे, टूटे हुए पत्तों और डिवाइडर की खस्ता हालत देख नाराजगी जाहिर की। आयुक्त अरुण हसीजा ने उपायुक्त उद्यान मोनिका सोनी और उद्यान अधीक्षक छाजू राम को पार्कों में साफ सफाई करने के निर्देश दिए। आयुक्त अरुण हसीजा ने परकोटा, ब्रह्मपुरी, रामगंज, गडी स्कीम, हसनपुरा, सोडाला, सिविल लाइन, बनी पार्क इलाके में पार्कों की स्थिति देखी।


इस दौरान आयुक्त अरुण हसीजा ने उपायुक्त उद्यान को सभी पार्कों में भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए, साथ ही स्थानीय विकास समिति को

■ उन्होंने सभी पार्कों का भौतिक सत्यापन करवाते, लापरवाह ठेकेदारों का धुम्रानत रोकने व ड्रोन सर्वे के आदेश दिए

पार्कों से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हैरिटेज निगम क्षेत्र में आने वाले पार्कों को गोद दिया जाएगा। जिससे कि हैरिटेज निगम समितियों के सहयोग से उनका विकास करें। आयुक्त अरुण हसीजा ने कहा कि सभी पार्कों के भौतिक सत्यापन किए जाएंगे। जिससे कि उनकी सही तरीके से देख की जा सकें। इस दौरान उद्यान अधीक्षक छाजू राम और अन्य निगम अधिकारी भी मौजूद रहे।

डॉ. अग्रवाल के निबंध सामाजिक मूल्यों से निर्मित : वैभव सिंह

नई दिल्ली। रोजमर्रा के विषयों पर निबंध लिखना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे निबंधकार को जीवन के बुनियादी और मूलभूत संघर्षों से दो चार होना पड़ता है। विख्यात आलोचक डॉ. वैभव सिंह ने विश्व पुस्तक मेले में डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल को दो पुस्तकों का लोकार्पण करते हुए कहा कि अग्रवाल का लेखन हिंदी निबंध लेखन की गौरवशाली परम्परा की याद दिलाता है जो भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और परसाई जैसे महान निबंधकारों की थाती है। कौटिल्य बुक्स के स्टॉल पर हुए लोकार्पण में डॉ सिंह ने उनके निबंध संग्रह 'पंडीस का समय' के विषय वैविध्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि साहित्य, संस्कृति, मीडिया और शिक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर अग्रवाल के निबंध पाठकों को समृद्ध करने वाले हैं। उन्होंने इन निबंधों की भाषा शैली को भी सरल और बोधगम्य बताया।



विख्यात आलोचक डॉ. वैभव सिंह ने विश्व पुस्तक मेले में डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल की दो पुस्तकों का लोकार्पण किया।

डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल को दूसरी विमोचित पुस्तक 'गर् दिनो का सुराग लेकर' की चर्चा करते हुए युवा आलोचक डॉ पल्लव ने कहा कि यदि नई सदी को कथेर लेखन की सदी कहा जा रहा है तो इसका श्रेय संस्मरण विधा को सबसे अधिक है और दुर्गाप्रसाद युवती-परिचय सम्मेलन 9 मार्च 2025 को भगवान परशुराम भवन सेक्टर 4 विद्याधर नगर जयपुर में आयोजित किया जायेगा। अब तक समाज के 50 हजार से अधिक परिवारों को इसका लाभ प्राप्त हो चुका है। देश-विदेश के उच्च शिक्षित, डॉक्टर, इंजीनियर उच्च सरकारी सेवा में सेवारत वकील सीए सीएस व व्यापारी प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त युवक युवती एवं ग्रामीण परिचय के युवक युवती भी अपना परिचय देते हैं। पंजज पंचलंगिया ने बताया कि बायोडाटा को परिचय सम्मेलन की पुस्तिका फॉर्म दर्पण में प्रकाशित किया जाता है। मुर्म भरने की अंतिम तिथि 10 फरवरी है।

अग्रवाल के कालेज अध्यापन के सुनहरे प्रसंग हैं जो पिछली शताब्दी में उच्च शिक्षा की गंभीरता और शिक्षकों के समर्पण से उभरे हैं। पल्लव ने कहा कि स्मृतियों से शक्ति भी मिलती है और यह पुस्तक लेखक को सकारात्मक दृष्टि का सुंदर चित्र खींचने में सफल है।

आयोजन में राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी प्रोफेसर डॉ विशाल विक्रम सिंह ने कहा कि गद्य विधाओं के लेखन में डॉ अग्रवाल ने लगातार सुजन किया है जो किसी भी प्रतिबद्ध लेखक के लिए प्रेरणादायक है। सिंह ने कहा कि असामाजिकता के कटु वातावरण में अग्रवाल साहब का सम्पूर्ण लेखन पाठकों को विवेकवान नागरिक बनाता है। संयोजन कर रही काजी नजरूल विश्वविद्यालय, आसनसोल की हिंदी विभाग की प्रोफेसर एकता मंडल ने निबंध लेखन को अनिवार्य बताते हुए इसे लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक बताया।

इससे पहले कौटिल्य बुक्स के निदेशक सुधीर यादव ने सभी वक्ताओं का स्वागत किया और बताया कि उनके प्रकाशन से डॉ अग्रवाल की यह छठी पुस्तक है। आयोजन में बड़ी संख्या में पाठक, लेखक और साहित्यकार उपस्थित थे। अंत में सूरज कुमार ने सभी का आभार प्रदर्शित किया।

सार-समाचार

पेंशनर्स ने की रोग व निदान पर चर्चा



जयपुर। राजस्थान पेंशनर समाज, उप शाखा मालवीय नगर की बैठक मुख्य संरक्षक आर बी गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत अग्रवाल हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉ. कमल चेलानी ने पेंशनरों को यूरोलोजी की विभिन्न बीमारियों से अवगत करते हुए समय पर उपचार कराने की सलाह दी। उन्होंने कहा जैसे-जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ने लगती है, तो उन्हें मूत्र रोगों से संबंधित कुछ लक्षणों जैसे पेशाब करने में कठिनाई आना, पेशाब करते समय दर्द या जलन अनुभव होना आदि हो तो अविलम्ब योग्य चिकित्सक से अपना उपचार कराए। इस रोग का समय पर पता लगा जाता है, तो इनका प्रभावी रूप से इलाज संभव है। कार्यक्रम संयोजक डॉ. अंज. के. व्यास ने डॉ चेलानी का स्वागत करते हुए पेंशनर समाज की स्मार्किया भेंट की जबकि चेतन कुमार जैन ने नए सदस्यों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सचिव प्रीतम दास आरोडा ने आयोजन विषयक जानकारी देते हुए आगामी बैठक की जानकारी दी। उप सचिव बाबूलाल गुप्ता ने बताया पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए संगठन सतत प्रयतनशील है। समृति शेष सदस्यों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

चतुर्वेदी समाज का चिकित्सा शिविर



जयपुर। श्री माधुर चतुर्वेदी महा परिषद जयपुर शिविर को ओर से राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर में निशुल्क चिकित्सा परामर्श जिला का आयोजन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री डॉ अरुण चतुर्वेदी ने शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सवाई मारनसिंह चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग के पूर्व आचार्य डॉक्टर महेश चतुर्वेदी, चतुर्वेदी महा परिषद के सभापति राष्ट्रीय नीज चतुर्वेदी, महामंत्री पितृयु पाणी चतुर्वेदी, एस जोधपुर और राजस्थान अस्पताल जयपुर के चेरमैन डॉक्टर एस एस अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। महा परिषद के जिला अध्यक्ष अलोकेश चतुर्वेदी, महामंत्री भानु चतुर्वेदी, संरक्षक पंजज भूषण चतुर्वेदी, हरीश चतुर्वेदी, नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष चितरंजन चतुर्वेदी, सुनील चतुर्वेदी पत्रकार, राकेश रंजन चतुर्वेदी सहित महापरिषद की कार्यकारिणी के तमाम सदस्य एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्वसन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर जोशी, डॉ. नीणा आचार्य, डॉ. अरुण शर्मा, डॉ. मुनेश माहेश्वरी, डॉ. एस एस सोनी एवं अन्य सहयोगी चिकित्सकों ने लोगों को निशुल्क परामर्श दिया। शिविर में बड़ी संख्या में समाजजनों ने निःशुल्क परामर्श व जांच का भी लाभ उठाया। इस अवसर पर अस्पताल प्रबंधन की परिषद के साथ समाज बंधुओं को भविष्य में अस्पताल में दिखाने पर समाज बंधवों के लिए चिकित्सा परामर्श में 25 प्रतिशत और जांच में 10 प्रतिशत की छूट का समझौता पत्र भी साइन किया गया।

शराब व जुआ-सट्टा में लिप्त 10 गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर दक्षिण पुलिस ने अवैध शराब और जुआ-सट्टा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दस आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देशी और अंग्रेजी शराब सहित जुआ-सट्टा से जुड़े 27 हजार 710 रुपये नकद और सट्टा सामग्री जब्त की है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण दिवत आनंद ने बताया कि जिला स्पेशल टीम दक्षिण ने सांगानेर सदर, शिरा पथ, सोडाला, मानसरोवर और मुहाना थाना इलाके में अवैध शराब और जुआ-सट्टा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए द्दरिका सांसी निवासी सांगानेर सदर जयपुर, नरेश कुमार निवासी शिरा पथ जयपुर, दिनेश सिंह निवासी सोडाला, ब्रज मोहन गुप्ता निवासी सोडाला जयपुर, सुनील कुमार निवासी सोडाला जयपुर, राजेंद्र निवासी सोडाला, रघोजी राम धानका निवासी सांगानेर सदर जयपुर, मुकेश यादव निवासी मुहाना जयपुर, विशाल पंवार निवासी मालपुरा गेट और शुभा शाक्स निवासी मालपुरा गेट जयपुर को गिरफ्तार कर उनके पास से देशी और अंग्रेजी शराब सहित जुआ-सट्टा से जुड़े 27 हजार 710 रुपये नकद और सट्टा सामग्री बरामद की है।

स्मैक तस्कर पुलिस के हथ्ये चढ़ा

जयपुर। कालवाड थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करि करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 5.57 ग्राम स्मैक भी जब्त की है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी कविता शर्मा ने बताया कि पुलिस कमिश्नरट की ओर से चलाए जा रहे अपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करि करने वाले तस्कर दिनेश सांसी निवासी निवाडी जिला के जलाल मानसरोवर जयपुर को गिरफ्तार कर उसके पास से 5.57 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस आरोपित से मादक पदार्थ की खरीद-फरोख के बारे में पूछताछ करने में जुटी है।

#RESEARCH

Hairstylists exposed to toxic air

“At the root of the problem are the products used on clients’ hair,” says Lesliam Quiros-Alcala, study senior author and associate professor in the Environmental Health and Engineering department at Johns Hopkins University. “Manufacturers of hair-care products need to focus on developing safer options that don’t put hairstylists or consumers in harm’s way.”



Hairstylists, especially those providing services to Black and Latina women, are exposed to high concentrations of harmful airborne chemicals in their workplace, a team of researchers has found. The study in the *Journal of Environmental Exposure Assessment* is the first to report indoor air concentrations of several Volatile Organic Compounds or VOCs in US hair salons, serving this group of women.

This builds on previous research that found Black and Hispanic hairdressers had higher levels of chemicals from hair relaxers, dyes, and other salon products in their bodies compared to office workers but did not specifically measure air concentrations of the chemicals.

The researchers conducted air monitoring to measure 14 VOCs in three salons, serving Black women, three Dominican salons, predominantly serving Latina and Black women, and 10 office spaces not connected to salons, to serve as a comparison group. Most of the spaces tested had some level of the VOCs that the researchers were looking for. However, median VOC concentration were two to 175 times higher in salons than in offices.

“At the root of the problem are the products used on clients’ hair,” says Lesliam Quiros-Alcala, study senior author and associate professor in the Environmental Health and Engineering department at Johns Hopkins University. “Manufacturers of hair-care products need to focus on developing safer options that don’t put hairstylists or consumers in harm’s way.”

Female hairstylists are vulnerable because they tend to be of reproductive age and work during critical periods before and during pregnancy. Many also tend to use products like chemical relaxers, straighteners, and smoothing products, which may pose particular health risks. Several of the VOCs in these products have been linked in animal studies to neuro-developmental and reproductive effects, potentially posing health risks for these women and

their unborn children. The compounds have also been linked to respiratory and cardiovascular effects, skin irritation, and cancer.

According to Quiros-Alcala, Black and Latina hair-stylists make up about 30% of the prospect of sighting my first *Baloo* or sloth bear (Melursus ursinus) on a trip with other wildlife enthusiasts, to Kumbhalgarh and Todgarh-Raoli wildlife sanctuaries in December 2019. My anticipation grew over the few days of exploring these two sanctuaries in central



A sweet tooth and taste for ants and termites takes them out of the sanctuaries.



Anirudh Nair
(A Wildlife Enthusiast and Writer)

As a child who grew up watching *The Jungle Book* television series in the 90s, I always found it difficult to pick a favourite animal character. Mowgli’s two best friends were both beloved, *Bagheera*, the cautious yet courageous black panther, and *Baloo*, the clumsy and free-spirited sloth bear with a weakness for honey. Over time, I learnt that I didn’t have to pick a favourite, and I could love them both.

These memories sparked, I was palpably excited at the prospect of sighting my first *Baloo* or sloth bear (Melursus ursinus) on a trip with other wildlife enthusiasts, to Kumbhalgarh and Todgarh-Raoli wildlife sanctuaries in December 2019. My anticipation grew over the few days of exploring these two sanctuaries in central



Sloth bear scat, a giveaway to what he had to eat the day before.

Rajasthan, as I listened to various tales of encounters with sloth bears, and saw tell-tale signs that they had left in the forest.

Panchu-ba, the old caretaker of the Raoli Forest Rest House, narrated his meetings with bears as we sat around a bonfire on our first night in the sanctuary. Gesticulating and swearing wildly, Panchu-ba told us about how a bear had stood on its hind legs to scare him off, when he accidentally chanced upon it, many years ago. When threatened, adult bears, who grow up to six feet in length and weigh more than 100 kgs, use this strategy and display their formidable foreclaws to intimidate an opponent.

The sloth bear, with its distinctive shaggy black coat, is the most common of the four species of bears found in India. Though its shambling gait gives it the appearance of being slow and clumsy, it can climb trees easily, and easily outrun a human.

We paused beside a crushed termite mound along a forest path inside Todgarh-Raoli Wildlife Sanctuary, and wildlife biologist, Dr. Sumit Dookia, explained to us that it was the handiwork of a sloth bear. “These bears are *myrmecophagous*, which means a large part of their diet comprises



ants and termites. Adaptations such as long claws to dig the mounds, and a jaw lacking incisors help them suck the insects up with ease,” he explained. Further down the path, we saw fresh bear scat, glittering under the morning sun. A closer examination revealed heads of termites and ants in the droppings, confirming what Dr. Dookia had said moments earlier.

But it’s not just termites that sloth bears feed on. These omnivorous animals also eat leaves, flowers, fruits, barks, stems, honey, and carcasses of wild and domestic animals. Trees such as the *amaltas* or Indian laburnum, *Maduca longifolia* or *mahua*, and the fruits of the Indian jujube or *ber* are among their favourites. It is not uncommon for the bears of Kumbhalgarh to leave the precincts of the sanctuary in search of food.


“An adult male recently got stuck in the wire fencing around a farm when out on one such advent-

While We Stayed Rooted To The Spot, The Bear Bolted

Panchu-ba, the old caretaker of the Raoli Forest Rest House, narrated his meetings with bears as we sat around a bonfire on our first night in the sanctuary. Gesticulating and swearing wildly, Panchu-ba told us about how a bear had stood on its hind legs to scare him off, when he accidentally chanced upon it, many years ago. When threatened, adult bears, who grow up to six feet in length and weigh more than 100 kgs, use this strategy and display their formidable foreclaws to intimidate an opponent.



BHALOO



Todagarh-Raoli and Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary’s undulating terrain is ideal habitat for the sloth bear.

We tranquilised it with a dart, treated the injuries on its leg and later released it back into the forest,” says Bhera Ram Bishnoi, a forest guard, posted at the Desuri range of Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary.

Bears do not understand the boundaries created by humans, and conflict is inevitable when they stray outside the sanctuary. “A man was blinded by a bear a few years ago, when he had gone to relieve himself by the roadside. This happened during the *meia*, which takes place at the Parusharam Mahadev Temple, located within the sanctuary,” Bishnoi tells us.

Chance encounters with the bears are at their highest during the monsoon when the vegetation turns dense. Abhinav Bharti, a forest guard, posted at the Raoli range of the Todgarh-Raoli Wildlife Sanctuary, narrated his experience to us. “Four of us were silently patrolling through a valley. I was walking ahead, tak-



World Pulses Day

The dried seeds of legumes, pulses are among some of the world’s most sustainable food sources. Chock-full of nutrients with a high content of protein, pulses make an excellent dietary staple, particularly in places where meat and dairy products are not accessible. These plant-based protein sources offer nutrition, sustainability, and versatility, enriching meals and promoting health and wellness. World Pulses Day is here to draw attention to and raise awareness about the health benefits of this extremely climate-friendly and healthy food!

#J'ADORE

The Trendiest Vista

As designers gear up to showcase their diaphanous, elegant, and heritage summer collections, get set to exude brilliant charm in the coolest Indian and Indo-inspired looks, yourself!

As the seasons of fashion swings, so does the style mood of fashion connoisseurs and tastemakers alike. In accordance with this change in preferences come a host of new trends, styling tips, and ultra-chic outfit ideas! As designers gear up to showcase their diaphanous, elegant, and heritage summer collections, get set to exude brilliant charm in the coolest Indian and Indo-inspired looks, yourself!

To start off, here’s a lowdown of some of the most trending styles in the Indian fashion scene today!

The Neon Revival

Few things spell freshness like neon hues! Adapting these hues to ultra-stylish *lehenga cholis*, embellished masks and jewellery is a fun way to keep the vibrancy alive when donning the latest fashion trends of the season. You can opt for neon yellow, green or pink to add a dash of summer freshness to your kurtis, lehengas, and sarees. Make a stylish statement like no other in neon!



The Turquoise Crush

Need to elevate a simple and elegant Indian outfit with a striking stylish accent? Turquoise hued jewellery spells summer freshness like no other! Give your outfit a vibrant and uber-stylish edge by pairing simple neutral-coloured Indian outfits like a saree, or an *angrakha*, with stand-out turquoise fashion jewellery.




The Saree-Kurta Duo

If you get bored of wearing the same old Indian classic in the same old way, this outfit idea is a winner for you. Combine two of the greatest Indian wear silhouettes in one of the boldest and experimental Indian fashion trends, the *kurta-saree set!* Instead of pairing your kurtis for women with the usual pants, salwar, pajama or churidar, opt for a saree.

Lengthen the *palla* of your saree and lessen the pleated area to reduce bulk underneath, in order to adapt the saree’s drape to a kurta length, to effectively execute one of the latest fashion trends of the season.



THE WALL




BABY BLUES



By Rick Kirkman & Jerry Scott

ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman



“मरू महोत्सव-2025” का आगाज लगातार दूसरी बार फीका साबित हुआ

मरू महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की बेरुखी नजर आई

पोकरण, (कास)। पोकरण में मरू महोत्सव 2025 का आगाज जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की उदासीनता के चलते लगातार दूसरी बार फीका ही साबित हुआ। वहीं पर्यटकों को परमाणु नगरी पोकरण में ठहराव करने के लिए मरू महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर देशी विदेशी पर्यटकों को ठहराव करने की सरकारी खजाने को खर्च कर देश-विदेश तक परमाणु नगरी की पहचान को लगातार आगे बढ़ाने की मुहिम को विफल होती हुई नजर आ रही है।

पोकरण के सालमसागर तालाब से निकली शोभायात्रा के दौरान आयोजन स्थल पर गंदगी और अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। शोभायात्रा के दौरान सुअरों का घूमना प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलता नजर आया। वहीं प्रतियोगिताओं में भाग लेने आए प्रतिभागियों के पानी तक के लिए तरसते रहे, लेकिन प्रशासन उन्हें पानी उपलब्ध नहीं करा सका। वहीं पर्यटन



पोकरण में मरू महोत्सव का आगाज विधायक प्रतापपुरी महाराज ने किया।

विभाग द्वारा भेजे गए इन्विटेशन कार्ड गायब होने की चर्चा पूरे शहर में रही। सूत्रों के अनुसार, पोकरण के प्रथम नागरिक मनीष पुरोहित को भी कार्यक्रम से मात्र एक दिन पहले रात आठ बजे निमंत्रण दिया गया। इस बार मरू महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की बेरुखी साफ नजर आई। पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, नगर पालिका अध्यक्ष

मनीष पुरोहित उद्घाटन के बाद कुछ जनप्रतिनिधि रवाना हो गए, प्रधान भगवत सिंह तंवर सहित अन्य जनप्रतिनिधि इस आयोजन से दूरी बनाए रहे, जबकि कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में नजर ही नहीं आए। वहीं महोत्सव को लेकर प्रशासन की लचर तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम स्थल पर अपेक्षित

भीड़ नहीं जुट सकी। मरू महोत्सव को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में उत्साह रहता है, लेकिन इस बार अव्यवस्थाओं के चलते यह आयोजन फीका नजर आया।

पोकरण लोक संस्कृति एवं कलाकारों के स्थापित मंच का पर्याय बन चुके मरू महोत्सव 2025 का आगाज रविवार को नेपालेश्वर महादेव का मंदिर के पूजा अर्चना के साथ पोकरण में हुआ। चार दिवसीय कार्यक्रमों की कड़ी में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने नेपालेश्वर महादेव की आरती कर महोत्सव का आधिकारिक शुभारम्भ किया। जिला कलेक्टर प्रतापसिंह, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर सक्षम गोयल, 87 बीएसएफ कमांडर रणवीर सिंह, पोकरण एसडीएम प्रभजोतसिंह, पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, अधिशासी अधिकारी इन्द्रसिंह, पूर्व विधायक सांगसिंह भाटी, पूर्व जिला अध्यक्ष जुगल किशोर व्यास एडवोकेट सहित शहर के कई


गणमान्य नागरिकों के साथ ही उपस्थित जन समूह ने शोभायात्रा में भाग लिया।

वहीं साफा बांधों प्रतियोगिता में पांच संभागियों ने भाग लिया, जिसमें भैरूलाल विजेता रहे। जिसके पश्चात पारंपरिक वेशभूषा में सजे ध्वजे बाँके जवानों मिस्टर पोकरण एवं मिस पोकरण प्रतियोगिता में पोकरण विधानसभा क्षेत्र से बाहर के प्रतियोगियों ने भाग लिया और अवार्ड प्राप्त किया, गोपालसिंह भाटी मिस्टर पोकरण एवं अमिताषा चौधरी मिस पोकरण बनीं। इसके पश्चात रस्साकस्सी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें काफी जद्दोजहद के बाद पुरूष वर्ग में महादेव क्लब एवं महिला वर्ग में पीएल जिम विजेता रहे। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजेश उज्जवल ने किया एवं प्रतियोगिता के आयोजन में यशवीर सिंह, चनश्याम माली, महेन्द्र रतनू ने सहयोग किया।

आयुर्वेद वि.वि. में शोध के लिए पार्थिव देह दान

जोधपुर, (कास)। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के संचटक अध्यक्ष महाविद्यालय में चिकित्सा अध्ययन और शोध कार्य के लिए पार्थिव देह का दान किया गया। यह पुण्य कार्य

■ कुलपति प्रोफेसर (वेद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति ने देहदान को अमूल्य योगदान बताया



रामेश्वर सिंह गहलोत

हुए कहा कि यह पार्थिव देह हमारे चिकित्सा अध्ययन और शोध में सफलता का आधार बनेगी। उन्होंने इसे प्रथम गुरु कहते हुए परिजनों के निस्वार्थ भाव की सराहना की। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के परिसर में पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और छात्रों को 'केडेवरिक ओथ' दिलाई गई। साथ ही की स्मृति में आंवले का पौधा लगाया गया। प्राचार्य एवं रचना शारीर विभाग के विभागाध्यक्ष ने देहदान को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया और अन्य लोगों से भी इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरणा लेने का आग्रह किया।

कबाड़ियों के ठिकानों की तलाशी

जोधपुर, (कास)। जोधपुर पुलिस की अलग-अलग टीमों ने कबाड़ का व्यवसाय करने वालों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान सुबह ही शुरू कर दिया गया। इस दौरान पुलिस की ओर से कबाड़ का सामान बेचने वालों से जानकारी ली गई। पुलिस की टीम ने प्रताप नगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद कबाड़ी वालों के यहां पर जाकर कबाड़ का काम करने वाले स्टॉफ, दुकान आदि के बारे में जानकारी ली। टीम ने यहां पर कबाड़ के सामान को लेकर भी जानकारी ली। गौरतलब कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस को सूचना मिली रही थी कि कबाड़ की दुकानों पर चोरी का माल खरीदा और बेचा जाता है। इसी तथ्य को लेकर संदेह के आधार पर ने अभियान चलाया गया। बहरहाल इस बारे में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है।

पांच मोरों के मारे जाने से ग्राम जोधपुरा में सनसनी

पावटा, (निर्स)। प्रागपुरा थाना क्षेत्र के गांव जोधपुरा में राष्ट्रीय पक्षी पांच मोरों को मारकर एक खेल में फेंके जाने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच की।

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में इन दिनों कोई ऐसा गिरौह सक्रिय है, जो आए दिन मोर का शिकार कर रहा है। इस बीच रविवार शाम को गांव जोधपुरा में न्यू कॉलोनी के पास खेलों में ग्रामीणों ने पांच मोरों को मरा देखा तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर प्रागपुरा थाना पुलिस व वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। वहीं गांव के शिंभू चौधरी, धोलाराम झिंडवाडिया, विक्रम नेहरा, झांझु राम मौर्य, सुरेंद्र मौर्य, रामावतार सेनी सहित खेलों में काम कर रही महिलाओं ने बताया कि कुछ बावरिया लोगों द्वारा मोर का शिकार किया जा रहा था। उनकी आवाज सुन जब उन्होंने



मृत मोर मिलने पर लोगों ने आक्रोश जताया।

हल्ला मचाया तो शिकार करने वाले भाग खुड़े हुए। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय पक्षी को मारने पर आक्रोश व्यक्त किया है। वन विभाग पावटा नाका फॉरेस्टर

यादराम का कहना था कि टीम मौके पर गई थी, वहां दो मोर व तीन मोरनियां मृत मिलीं, जिनको पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया, जांच की जा रही है।

ससुर ने अपनी ही बहू से छेड़छाड़ की

■ पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई

शादीशुदा जीवन यापन कर रही थी, इस दौरान उसने दो संतानों को भी जन्म दिया। वर्ष 2020 से ससुर की नियत बहू पर पलटी और उसने बहू को परेशान करना शुरू कर दिया। बहू ने ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उसके पति को दूसरी शादी करने और उसे अपनी पत्नी की तरह साथ रखने

की बात कहते हैं।

पीड़िता का आरोप है कि उसका ससुर आए दिन उसके साथ अश्लील हरकत करता है और एक बार उसने बलात्कार करने की भी कोशिश की। विरोध करने पर उसकी सास, पति, जेट व जेटानी ने उसके साथ मारपीट की। जैसे-तैसे पीड़ित अपनी जान बचा कर वह से भाग छूटी और परिवारजनों की मदद से मांडल थाना पुलिस को रिपोर्ट दी, लेकिन अब तक भी मामले में कार्यवाही नहीं होने के कारण पीड़ित ने जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेश यादव से न्याय की गुहार लगाई है।

लाखों के बर्तन चोरी

पावटा, (निर्स)। ग्राम बड़नगर के पास स्थित दुलेसिंह का बास शिवालय के पास बने कमरे को गुरुवार रात चोरों ने निशाना बनाते हुए समाज द्वारा समाज के लिए एकत्रित किए गए पीतल, तांबे, एल्यूमिनियम के लाखों के बर्तन चोरी कर लिए। घटना की सूचना प्रागपुरा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। घटना को लेकर हनुमान सागर सहित लोगों ने पुलिस में अज्ञात चोरों के

खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जिसमें बताया है कि दुलेसिंह का बास शिवालय के पास बने कमरे में समाज द्वारा समाज दूल्हे सिंह की ढाणी, थालोड़ की ढाणी, सारणो की ढाणी, बासंडयाला की ढाणी, पलाना की ढाणी, डेहर तक के समाज के लिए एकत्रित किए गए पीतल, तांबे, एल्यूमिनियम के लाखों के बर्तन चोरी हुए थे। जिनका वजन करीब पांच क्विंटल था, जिनकी अनुमानित कीमत करीब पांच लाख रुपए हैं।

जीप चुराकर भागे युवक को करणपुर जेल से किया गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, सुखाडिया शांतिपुलिस स्टेशन पर मरम्मत के लिए आई जीप चोरी करने के आरोप में जवाहरनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कारवाई जांच अधिकारी हैड कांस्टेबल गुरमेलसिंह ने की। आरोपी युवक को श्रीकरणपुर सब जेल से प्रोडेशन वॉरंट पर गिरफ्तार कर

हादसे में एक की मौत, दो घायल

टोंक/देवलली। देवलली थाना क्षेत्र के नेगडिया गांव मार्ग पर खड़े तीन बाईक सवारों पर कार ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। प्रापत जानकारी के अनुसार शनिवार की रात को तीन बाईक सवार जिसमें रविप्रकाश अपने दो दोस्तो सुरेश बैरवा व प्रधान थाकड के साथ पोल्याडा से वापस घर लौट रहे थे, तभी वह अजमेर मार्ग स्थित बालाजी के मन्दिर के पास सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान देवलली की तरफ से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी और केकडी की ओर फरार हो गई। टक्कर में रविप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई तथा दो अन्य युवक घायल हो गये, जिन्हें वहां मौजूद ग्रामीणों की सहायता से देवलली चिकित्सालय पहुंचाया जहां पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनो को सौंप दिया।

जोधपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव पर गबन का आरोप

एडहॉक कमेटी संयोजक अरिष्ट सिंघवी ने मामला दर्ज करवाया है

■ जिला क्रिकेट एसोसिएशन में करीब 16 लाख रुपए का गबन का आरोप लगाया

जोधपुर, (कास)। जोधपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव सुखदेव सिंह देवल के खिलाफ शास्त्री नगर पुलिस थाने में गबन का मामला दर्ज हुआ है। एडहॉक कमेटी संयोजक अरिष्ट सिंघवी ने मामला दर्ज करवाया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जोधपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पद पर रहते हुए सचिव सुखदेव सिंह देवल ने अन्य व्यक्तित्व के साथ मिलकर सांठागांठ कर वित्तीय अनियमितता करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और जिला क्रिकेट एसोसिएशन में करीब 16 लाख रुपए का गबन किया। रिपोर्ट में बताया कि संगठन के संविधान के अनुसार संगठन का खाता बैंक में खोला होगा और संगठन के अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष तीन पदाधिकारी में से दो पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर पर ही बैंक से रुपए निकाले जा सकेंगे और इसका अनुमोदन करवाना होगा।

अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की ओर से एक मुश्त रूप से स्वीकृत राशि का अनुमोदन कार्यकारिणी और मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा किया जाएगा। संगठन के संविधान के नियम 22 के तहत सचिव संगठन के हित के उद्देश्यों की पूर्ति, कार्य और समय की आवश्यकता के अनुसार 25000 तक की राशि का ही आहरण कर सकेगा, जिसका अनुमोदन मैनेजमेंट कमेटी से करवाना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि संगठन की नई कार्यकारिणी का चुनाव मई 2024 को हुए थे और 20 जून से नई कार्यकारिणी गठन के बाद क्रियाशील हुई, लेकिन

संगठन के सचिव सुखदेव सिंह देवल की ओर से नियमों की पालना नहीं की गई और अन्य व्यक्तित्व श्रवण प्रजापत के साथ मिलकर गड़बड़ी की गई। संगठन के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जालोरी गेट शाखा के खाते से 16 लाख 42 हजार 712 रुपए का गबन किया गया, जबकि नियमानुसार नई कार्यकारिणी के गठन 20 जून के बाद बैंक से पैसे निकालने के लिए संगठन के अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष में से दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर सहित खाते का संचालन किया जा सकता था लेकिन सचिव सुखदेव सिंह देवल ने इसकी सूचना दिए बगैर खुद के और पूर्व संयुक्त सचिव श्रवण प्रजापत के हस्ताक्षर से 16 लाख रुपए से अधिक की राशि को बिना किसी अधिकार के बैंक से निकाल ली। रिपोर्ट में बताया कि कार्यालय रजिस्टर संस्था जोधपुर की ओर से भी 29 जनवरी 2025 को हुई जांच में भी यह तथ्य साबित पाए गए हैं।

दुकान से आठ लाख रुपये के मोबाइल चोरी

चोरी की घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई

टोंक, (निर्स)। सदर थाना क्षेत्र के चंदलाई गांव में बीती रात तीन अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर करीब 8 लाख रुपए के महंगे हैंडसेट (स्मार्ट व एंड्रॉइड मोबाइल) चोरी कर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे सदर थानाधिकारी जयमल सिंह ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के चंदलाई में कार में सवार होकर आए बदमाशों ने शनिवार रात को दुकान का शटर तोड़कर करीब 8 लाख रुपए के

मोबाइल चोरी कर लिए। सीसीटीवी कैमरे में 3 कार सवार बदमाश नजर आये हैं। एमओबी व एफएसएल से साक्ष्य उठाए गए एवं रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

वहीं पीड़ित दुकानदार कन्हैयालाल गुर्जर ने बताया कि बदमाश कार में सवार होकर दुकान पर पहुंचे थे, जहां दुकान के पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। दुकानदार ने बताया कि महज पांच मिनट के अंदर ही

बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं कारपाई पर सो रहे ग्रामीण के सिर पर एक बादमाश ने रिवाल्वर लगा दी और धमकाया कि आवाज निकाली या चिल्लाया तो जान से मार देंगे। ग्रामीण डर गया और वह चुपचाप लौटा रहा। इस दौरान दो अन्य बदमाश दुकान का शटर तोड़ने के बाद बैग व थैलों में भरकर मोबाइल चुरा ले गए। बाद में ग्रामीण ने चिल्लाया और आसपास के लोग जाग गए और कुछ लोग मौके पर पहुंचे।

मोटरसाइकिल व थार कार में भिड़न्त, दो घायल

निवाड़ी। बरोनी थानान्तर्गत बरोनी से पराना रोड पर एक मोटर साइकिल व एक थार कार में भिड़न्त हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दो जनें घायल हो गए। सूचना मिलने पर बरोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चालक मोहित पुत्र शिवराज बैरवा 25 वर्ष व विजय पुत्र राजेंद्र

बैरवा 28 वर्ष दोनों निवासी बंबोर थाना सदर टोंक को घायल हालत में राजकीय सामुदायिक अस्पताल निवाड़ी में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। थानाधिकारी वृजेंद्रसिंह ने बताया कि दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के लिए रैफर कर दिया गया।

ठगी गई रकम में से 2.90 लाख रिफंड कराये

जयपुर/चूरु। चूरु जिले की सरदारशहर थाना पुलिस ने साइबर ठगों द्वारा ठगी गई रकम में से 2.90 लाख रुपए पॉइंट के खाते में रिफंड करवाने में सफलता प्राप्त की है। साइबर ठगों द्वारा ऑनलाइन डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट का झंसा देकर पॉइंट से सात लाख रुपए ठग लिये थे। एसपी जय यादव ने बताया कि ऑनलाइन ठगी के पीड़ित द्वारा साइबर पॉर्टल पर रिपोर्ट दी गई कि साइबर ठगों द्वारा ऑनलाइन डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करने पर प्रॉफिट का झंसा देकर उससे अलग-अलग खातों में सात लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। साइबर पॉर्टल पर दर्ज कराए गए परिवार की जांच एसएचओ मदन लाल बिश्नोई के नेतृत्व में सरदारशहर थाने के साइबर

■ ऑनलाइन डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट का झंसा देकर पॉइंट से सात लाख रुपए ठगे थे

माटीकला कामगारों ने सीखे पॉर्टरी कला के गुर

श्रीगंगानगर, श्रीयादे माटी कला बोर्ड की ओर से आयोजित दस दिवसीय इलेक्ट्रिक पोटर व्हील प्रशिक्षण कार्यक्रम गणेश विहार द्वितीय स्थित बुधराम कुम्हार के निवास पर जारी है। प्रशिक्षण के लिए प्रदेशभर से माटी कला कामगारों व दस्तकारों का चयन किया गया है। इनमें श्रीगंगानगर के 20 कामगार शामिल हैं। शिविर में कामगारों व दस्तकारों को पॉर्टरी कला, आयु बढ़ाने के विभिन्न माध्यम, मिट्टी से पानी की बोलत सहित अन्य कई प्रशिक्षण दिए गए। दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कामगारों के जलपान की व्यवस्था श्री यादे माटी कला बोर्ड की ओर से की गई। प्रशिक्षक बुधराम कुम्हार ने बताया कि 20 कामगारों में एक दिव्यांग व एक विधवा महिला को भी शामिल किया गया।

कलेक्टर के आतिथ्य में मिस्टर भीलवाड़ा-मिस भीलवाड़ा प्रतियोगिता का आयोजन

भीलवाड़ा, (निर्स)। “भीलवाड़ा महोत्सव” के तहत रविवार को जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के मुख्य आतिथ्य में चित्रकूट धाम में मिस्टर भीलवाड़ा-मिस भीलवाड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में शहर के युवाओं और विभिन्न आयुवर्ग के लोगों ने भाग लिया

■ मोहम्मद इसाक खान को मिस्टर भीलवाड़ा और यश कंवर राणावत को मिस भीलवाड़ा चुना गया



जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और अधिकारियों ने विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए।

किया। जूरी ने प्रतिभागियों को उनके व्यक्तित्व, वेशभूषा और प्रतिभा के आधार पर आंका और विजेताओं का चयन किया। निर्णायक दल के द्वारा घोषित परिणाम के आधार पर मोहम्मद

इसाक खान को मिस्टर भीलवाड़ा और यश कंवर राणावत को मिस भीलवाड़ा चुना गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने बताया कि मिस्टर भीलवाड़ा-मिस

भीलवाड़ा प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने के लिए किया गया है। इस प्रतियोगिता ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया है। जिला कलेक्टर

संधू और अधिकारियों ने विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए। इस दौरान प्रतिभागियों ने कहा कि वह राजस्थानी की संस्कृति और कला को प्रदर्शित करते हैं। अपनी राजस्थानी कला और संस्कृति पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। इससे पूर्व विभिन्न लोक कलाकारों, नन्हे भूँ बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ओम प्रकाश मेहरा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) प्रतिभा देवतिया, जिला शिक्षा अधिकारी योगेश चंद्र पारीक, कोषाधिकारी टीना रोलानिया, जिला उद्योग केंद्र से राहुल देव सिंह, सीएमएचओ डॉ सोपों गोस्वामी, डीएसओ अमरेंद्र मिश्र, महिला अधिकारिता विभाग से नागेंद्र तोल्लंबिया, बड़ी संख्या में आमजन आदि मौजूद रहे। मंच संचालन प्रिंसिपल श्रीमती प्रितीक्षा ठाकुर, पंकज पंवार ने किया।

‘भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर डामर सड़क बनाने की तैयारी’

राजस्थान-पंजाब में सेना को गाड़ी से गश्त करना आसान होगा, तस्करी पर भी रोक लगेगी

बीकानेर, (कांस)। राजस्थान-पंजाब से लगते भारत-पाक बॉर्डर से अब पड़ोसी देश पाकिस्तान पर नजर रखना आसान होगा। गश्त करते जवानों के पैर अब रेत-मिट्टी में नहीं धंसेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर सहित पंजाब के क्षेत्र में भी बॉर्डर पर जीरो फेंसिंग के पास डामर सड़क बनाने की तैयारी है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने करीब साढ़े चार हजार करोड़ रूपए का बजट जारी किया है। सड़क बनने से जवान बॉर्डर पर पैदल सहित वाहनों पर भी गश्त कर सकेंगे। भारी वाहनों के मुवमेंट करने के साथ-साथ बॉर्डर पर पेटीलिंग करने में भी आसानी होगी। सुरंग या अन्य तरीके से नशीले पदार्थों की तस्करी पर भी लगाम लगेगी।



बीएसएफ मुख्यालय में बॉर्डर सिक्वोरिटी फोर्स के आईजी एमएल गर्ग ने पत्रकार वार्ता को सम्बोधित किया।

बॉर्डर सिक्वोरिटी फोर्स के आईजी एम.एल. गर्ग ने बताया कि अकेले राजस्थान में एक हजार से ज्यादा किमी लम्बी सड़क का निर्माण होगा। बॉर्डर सिक्वोरिटी फोर्स (बीएसएफ) के आईजी एम.एल. गर्ग ने बताया कि भारत सरकार ने देश की

सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाया है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर से 1096 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। शेष करीब साढ़े तीन सौ किलोमीटर सड़क का निर्माण पंजाब में होगा। कुल 1450 किलोमीटर की सड़क बन रही

है। जीरो लाइन पर स्थित फेंसिंग से सटकर सड़क बनाई जायेगी। इसका काम करीब एक महीने में शुरू होने की संभावना है। सड़कों का जाल बिछाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने 2021 में ये

बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर सहित पंजाब के क्षेत्र में भी बॉर्डर पर जीरो फेंसिंग के पास डामर सड़क बनाने की तैयारी है

प्रोजेक्ट तैयार किया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसे मंजूर किया था। सड़क का काम बाड़मेर से शुरू होता हुआ जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर तक जायेगा। पंजाब में सड़क बनाने का काम शुरू हो चुका है। वर्तमान में बीएसएफ के जवानों को गश्त में रैलीले धोरों के कारण परेशानी आती है। अब ये गश्त पैदल के साथ ही जीप-जिप्सी के माध्यम से भी हो सकेगी। गाड़ी से गश्ती के दौरान जीरो लाइन पर स्थित एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक पहुंचने में कम समय लगेगा।

गर्ग ने बताया कि बॉर्डर पर से फेंके जा रहे हेरोइन सहित अन्य नशीले पदार्थों पर नजर रखना भी आसान होगा। जमीन के अंदर ही अंदर सुरंग बनाकर नशे की तस्करी करना पड़ोसी देश के लिए मुश्किल होगा। भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर सुविधाओं की दृष्टि से बड़ा अंतर है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी भारतीय सीमाओं के ठीक सामने अपनी चौकियों स्थापित की हैं। भारतीय चौकियों पर लाइट्स हैं। फेंसिंग है। इन फेंसिंग पर भी रातभर लाइट्स जलती हैं। हर 50 मीटर की दूरी पर लाइट्स इतनी तेज हैं कि दुश्मन देश से कोई हरकत जीरो लाइन पर हो तो साफ नजर आती है। इसके अलावा भारतीय सीमा में तारबंदी है, जिसमें करंट दौड़ता है। तारों पर जगह-जगह जिंगल बेल लगी है, जो काफी दूरी पर टच होने पर घनघना उठती है। ऐसे में पास की चौकी पर चुसपैठ का संकेत मिल जाता है। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तानियों के पास नहीं है।

नाबालिग लड़की व युवक का शव पेड़ पर लटका मिला

दोनों आपस में रिश्ते में भाई-बहन लगते हैं, शवों के पास एक कंबल और बाइक मिली

उदयपुर, (कांस)। सलूबर जिले के सराड़ा थाना इलाके नाबालिग लड़की और युवक का शव पेड़ पर लटका देख ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार दोनों आपस में रिश्ते में भाई-बहन लगते हैं। शवों के पास एक कंबल और बाइक भी मिली है।

मौके पर नमूना एकत्र करने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जांच शुरू

प्राप्त जानकारी अनुसार मामला सलूबर जिले के सराड़ा थाना इलाके में शनिवार देर रात नाबालिग लड़की और युवक का शव पेड़ पर लटका देख ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। 11 घंटे बाद परिजन आए तब जाकर शव को पेड़ से नीचे उतारा गया। सराड़ा थाना प्रभारी हेमंत अहारी ने बताया कि शनिवार सुबह सात बजे ग्रामीणों ने दो शव पेड़ से लटकते होने की सूचना दी थी। थाने के एसआई मांगीलाल और हेड

कॉन्स्टेबल मणिलाल मौके पर पहुंचे थे। मौके पर जाकर परिजनों का पता लगाया और उन्हें सूचना दी। इसके बाद परिजनों के आने के बाद शवों को रात आठ बजे पेड़ से नीचे उतारा गया। इसके बाद सराड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मॉर्चुरी में रखा गया। पुलिस की जांच में नाबालिग लड़की की उम्र 14 साल है जबकि युवक 21 साल का है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि दोनों मृतक मामा-

बुआ के संतान होकर रिश्ते में भाई बहन थे। युवक मां की मौत के बाद युवक अक्सर अपने मामा के पास रहता था और वह मजदूरी करता था। मृतक के पिता खेतों पर सिजारी के रूप में काम करते हैं। युवक सात भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। उसके सबसे छोटी एक बहन है। युवक का नाता विवाह हो चुका था, लेकिन पत्नी उसे छोड़कर चली गई। उसके तीन साल का बेटा है जो अभी किसी अन्य रिश्तेदार के पास रहता है। मौके पर नमूना एकत्र करने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था। ग्रामीणों ने अनुसूचित पुलिस से उदयपुर में लड़की के पिता को फोन कर बुलाया। ऐसे में उन्हें उदयपुर से आने में 11 घंटे लग गए। इसके बाद दोनों को फंदे से उतारा गया।

महिला से दुष्कर्म, मामला दर्ज

श्रीगंगानगर, (निर्स)। एक विवाहिता से दुष्कर्म एवं आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मुकदमा हिंदुमलकोट थाने में दर्ज करवाया गया है।

आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया

करीब एक साल की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं एक युवक को किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला भी हिंदुमलकोट थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में सीओ ग्रामीण राहुल यादव ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भिजवाया है। मामले के अनुसार आरोपी इस किशोरी को उसके स्कूल से लौटते हुए को बाइक पर अपहरण करके ले गया था। बाइक को एक नाबालिग चला रहा था। किशोरी घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। किशोरी और आरोपी को परिजनों ने श्रीगंगानगर में पकड़ लिया गया।

कुंड में गिरने से युवक की मौत

सादुलपुर, (निर्स)। तारानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव मीठीडी पट्टा में रविवार को पैर फिसल कर पानी के कुंड में गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि चेताराम मेघवाल (32) निवासी मीठीडी पट्टा ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसके ताऊ का लड़का च्यानण मेघवाल निवासी मिठीडी पट्टा ने दरवाजे में चने की फसल की बुवाई कर रखी है। रविवार को वह अपनी फसल में स्प्रेंडिङ्ग करने के लिए स्प्रें की डोलकी भरने के लिए पानी के कुंड से पानी निकाल रहा था। अचानक पैर फिसलने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी के कुंड में गिर गया, जिसके कारण पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना का मौका निरीक्षण किया तथा मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों को सौंप दिया है।

मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई, एक गिरफ्तार

कोटपतली, (निर्स)। जिले की बानसूर थाना पुलिस ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुये बड़ी



दूध में मिलावट के मामले में पुलिस ने एक जने को गिरफ्तार किया।

- बड़ी मात्रा में मिलावटी दुग्ध व दुग्ध में मिलावट करने वाली सामग्री व उपकरण जब्त
- ग्राम कांजीपुरा में महसाणा डेयरी में बड़ी मात्रा में दुग्ध में मिलावट की सूचना मिली थी

मात्रा में मिलावटी दुग्ध व दुग्ध में मिलावट करने वाली सामग्री व उपकरण जब्त किये हैं। जानकारी के अनुसार गत छह फरवरी को एसपी राजन दुष्यन्त द्वारा बानसूर थाने का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान एसपी ने सीएलजी सदस्यों एवं सुरक्षा सखी की बैठक भी

ली थी। उन्होंने आमजन से अपील की थी कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई अपराध घटित होता है तो उसकी सूचना तुरन्त पुलिस को दें। इस पर शनिवार आठ फरवरी को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम कांजीपुरा में महसाणा डेयरी में बड़ी मात्रा में दुग्ध में मिलावट की जा रही है। सूचना पर एसपी राजन दुष्यन्त के निर्देशन, एसपी वैभव शर्मा व बानसूर डीएसपी दशरथ सिंह के

सुपरविजन में थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक द्वारा मय टीम के थाना क्षेत्र के ग्राम कांजीपुरा में दुग्ध में मिलावट करने वालों पर कार्रवाई करते हुये बड़ी मात्रा में मिलावटी दुग्ध एवं दुग्ध में मिलावट करने वाली सामग्री एवं उपकरण जब्त करते हुये डेयरी संचालक अभियुक्त अजय उर्फ टिंकू (25) पुत्र लखनोचन्द अहीर निवासी कांजीपुरा थाना बानसूर को गिरफ्तार किया गया।

दो लाख रुपये चुराने का आरोपी गिरफ्तार



व्यापारी के बैग से रुपये चोरी करने के मामले में आरोपी को पकड़ा

भीलवाड़ा, (निर्स)। शहर की सुभाष नगर थाना पुलिस ने गत दिनों आरसी व्यास कॉलोनी में एक व्यापारी के मकान से बैग में रखे दो लाख रुपये चुराने के आरोपी को गिरफ्तार कर एक लाख रुपये बरामद किये। सुभाषनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि आरसी व्यास कॉलोनी निवासी प्लाईवुड व्यापारी शिव कुमार पुत्र धर्माचंद माहेश्वरी के मकान में निर्माण कार्य चल रहा था। 27 जनवरी को शिकुमार शॉप जाने के लिए घर से आये। इसके बाद वे अपना एक बैग नीचे

रखकर पिता के साथ निर्माण कार्य देखने ऊपर चले गये। इसी दौरान एक बाइक सवार आया और बैग में रखे दो लाख रुपये चोरी कर फरार हो गया। इस वारदात को लेकर उन्होंने सुभाषनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर पुलिस ने बड़ी मस्जिद के पास कावांखेड़ा में रहने वाले इमरान उर्फ इमू पुत्र मोहम्मद सद्दीक शाह को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से एक लाख रुपये बरामद कर लिये।

दो लाख की शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निर्स)। जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत रामसागाड़ा थाना पुलिस ने जालुकुआ में की गई नाकाबंदी के दौरान बिना परमिट के शराब ले जा रही एक कार को पकड़ा है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी मोनिका सैन के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में थानाधिकारी गोपालनाथ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहनों की जांच के दौरान डूंगरपुर की ओर से आ रही एक कार को रोका। कार में सवार दो व्यक्तियों

की पहचान डूंगरपुर निवासी जयंती रोत और गोविंद कटरा के रूप में हुई है। कार की तलाशी के दौरान पुलिस को राजस्थान निर्मित बियर के 50 कार्टन मिले, जिनकी बाजार कीमत करीब दो लाख रूपए आंकी गई है। जब पुलिस ने शराब परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे, तो दोनों आरोपी कोई वैध परमिट नहीं दिखा सके। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत शराब से भरी कार को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

देवगांव ग्राम पंचायत के किसानों ने सांकेतिक उपवास रखा

मुकुंदगढ़, (निर्स)। 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन प्रभावित किसान संघर्ष समिति की उपवास बैठक देवगांव के आमचौक में हुई। बैठक की अध्यक्षता बलदेव सिंह ने की। पर्यवेक्षक के तौर पर संघर्ष समिति के श्रवण मांडासी मौजूद रहे। इस दौरान किसान सांकेतिक रूप से 12 घंटे के लिए उपवास पर रहे। उपवास के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के प्रवक्ता कॉमरेड कपिल ऐचरा व प्रवीण डाबड़ी ने कहा कि सरकारों के नुमाइं

लागातर किसानों को लूटने वालों के पक्ष में भाषा बोल रहे हैं, जबकि हर अधिकारी कर्मचारी को पता है कि गांवों में बाजार दर डीएलसी दर से कई गुणा ज्यादा है। हमारी स्पष्ट मांग है कि जिला कलेक्टर प्रत्येक तहसील में अपने तहसीलदारों की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर सर्वे के आधार पर बाजार दर तय करवाए। बाजार दर तय करवाने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। किसानों को सम्बोधित करते हुए बलदेव सिंह व श्रवण मांडासी ने कहा कि हमसे पहले गैस पाइपलाइन के कार्य में किसानों को

लुभावने वादों से टग लिया है। अब किसान जाग गया है और जल्द गैस पाइपलाइन से प्रभावित किसानों की जमाबंदियों से भी प्रशासन नोट हटा दें, अन्यथा संगठित होकर किसान उग्र आन्दोलन पर उतारू होगा। संघर्ष समिति के सतीश कप्तान ने बताया कि अगला उपवास मंगलवार को सांगली-मांडासी पंचायत के किसानों का होगा। उसके बाद 21 फरवरी से जेजूरसर संघर्ष प्रतिनिधि व संघर्ष समिति के प्रवक्ता कॉमरेड कपिल ऐचरा व साथी किसान आमरण अनशन पर बैठेंगे।

युवक पर जानलेवा हमले के मामले में तीन बदमाश गिरफ्तार, कोटा में ‘वाँक-ओ-रन 2025’ का आयोजन, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए



झालावाड़ जिले में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया।

जयपुर/झालावाड़। झालावाड़ शहर के कोतवाली थाना इलाके के जुआरी मोहल्ला में दो फरवरी की सुबह एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने माजिद उर्फ मोना पुत्र शौकत अली निवासी काले शाह बाबा की मस्जिद के पीछे, यासर अली पुत्र नसरत अली निवासी पाकगा मोहल्ला और शेख सलमान पुत्र सलीम निवासी नूर मंजिल नला मोहल्ला को गिरफ्तार कर लिया है।

झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि दो फरवरी को शहर के एचआरजी हॉस्पिटल में भर्ती जुआरी मोहल्ला निवासी अल्फ्रेड उर्फ रिंकू ने पचाई बयान दिये कि वह सुबह 11 बजे घर से काम पर जा रहा था। कुछ ही आगे उसे माजिद उर्फ मोना, यासर अली व सलमान पुत्र सलीम मिले। दोनों ने उनके भाइयों पर किए मुकदमे पर राजीनामा कर तथा मुकदमे में लगे रूपये वापस करने की बात की। इस पर मना कर दिया तो तीनों गाली-गलौज करने लगे। सलमान और यासर ने उसे पकड़

लिया तथा मोना ने अपनी जेब से चाकू निकाल कर उस पर हमला कर गम्भीर घायल कर दिया। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश की गयी। उक्त प्रकार की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया। विशेष टीमों द्वारा हमलावरों की पहचान कर घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों के टिकाने का पता लगा वारदात को अंजाम देने वाले तीन बदमाश माजिद उर्फ मोना, यासर अली व शेख सलमान को गिरफ्तार किया।

कोटा, (निर्स)। कोटा शहर में रविवार के दिन दो अलग-अलग दौड़ का आयोजन किया गया। रविवार की सुबह का सूरज एक अलग ऊर्जा लेकर उदय हुआ। इस ऊर्जा में अपने और अपने परिवार की सेहत के प्रति जागरूकता थी तो देशभर से कोटा में आकर पढ़ने वाले कोचिंग स्टूडेंट्स की सेवा के लिए समर्पण शामिल था। इसके साथ ही एक दौड़ पुरुष के सम्मान में भी आयोजित की गई। टीम हार्टवाइज द्वारा हेल्थ और हेप्पीनेस के संकल्प के साथ देश का सबसे बड़ा इवेंट ‘वाँक-ओ-रन 2025’ सुबह हुआ, जिसमें देश-विदेश से मैराथन रनर्स के साथ 40 हजार से अधिक शहरवासी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे, जिन्होंने 10 किमी मैराथन को वाँक-ओ-रन प्लेग दिखाया और शहरवासियों को कोटा केयर्स अभियान के तहत संकल्प दिलावाया। इस दौरान ऊर्जाधरि हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, संभागीय आयुक्त राजेन्द्र सिंह शेखावत, जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी और एएन के निदेशक



‘वाँक-ओ-रन 2025’ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अधिकारी व आमजन शामिल हुए।

राजेश माहेश्वरी भी मौजूद रहे। इन्होंने कोटा केयर्स रन को भी वाँक-ओ-रन प्लेग दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व शहर पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने 21 किमी मैराथन रनर्स को वाँक-ओ-रन प्लेग दिखाकर रवाना किया। शहर में हर वर्ग के लोगों में रन को लेकर उत्साह नजर आया। छोटे बच्चों

से लेकर बुजुर्ग तक रन में शामिल हुए और सेहत के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। दौड़ के बाद वाँक ओ रन के तहत हुई विभिन्न गतिविधियों के विजेता प्रतिभागियों को 2.5 लाख तक के पुरस्कार दिए गए। इस रन को रवाना करने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह कोटा शहर की

जीवंतता है कि सुबह इतनी बड़ी संख्या में शहरवासियों एकत्रित हुए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और सेहत पर ध्यान दें। अच्छा स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। शहरवासियों को कोटा में आने वाले कोचिंग स्टूडेंट्स को परिवार जैसा माहौल देना है। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।

‘वाँक-ओ-रन 2025’ में रनर्स के साथ शामिल हुए 40 हजार से अधिक शहरवासी

कोटा केयर्स के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरवासियों को संकल्प दिलावाया

इस अवसर पर उन्होंने शहरवासियों को कोटा केयर्स के तहत कोचिंग स्टूडेंट्स का ध्यान रखने का संकल्प भी दिलावाया। वहीं दूसरी तरफ कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम में रविवार, 9 फरवरी को आयोजित वाँक फॉर मेन कार्यक्रम में 5000 से अधिक परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य पुरुषों के समाज में योगदान, उनके संघर्ष और मानसिक-भावनात्मक स्थिति को समझने और उन्हें सम्मान देने के साथ-साथ समाज में उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना था।

दिल्ली चुनाव में जनता ने नकारा तो कांग्रेस को फिर याद आ रहे हैं हिंदू : मदन राठौड़

‘बांग्लादेश में हिंसा रोकने के लिए केन्द्र सरकार कर रही कूटनीतिक प्रयास’



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़

जयपुर (कांस)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बांग्लादेश हिंसा पर किए गए ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा है कि दिल्ली चुनावों में कराई हार के बाद अब कांग्रेस नेताओं को एक बार फिर हिंदू याद आने लगे हैं। दिल्ली चुनावों में तुष्टीकरण के चलते धर्म विशेष को खुश करने के लिए इतने दिन किसी भी कांग्रेस नेता के मुंह से बांग्लादेश हिंसा पर एक शब्द नहीं निकला लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर कांग्रेस नेताओं ने छद्म हिंदुत्व का राग अलापना शुरू कर दिया है। सदैव तुष्टीकरण की बात करने वाले भी अब हिन्दु हितों की बात करने लगे हैं यह अच्छी बात है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बांग्लादेश हिंसा को लेकर केन्द्र सरकार कूटनीतिक रूप से वहां की सरकार पर दबाव बना रही है। केन्द्र सरकार एवं विदेश मंत्रालय में समय समय पर बांग्लादेश के दूतावास एवं बांग्लादेश सरकार को हिन्दुओं पर हो रहे हमलों को रोकने का कड़ा सन्देश दिया है साथ ही विदेश मंत्रालय

- ‘पुजारियों के मानदेय में बढ़ोतरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ऐतिहासिक निर्णय’
- दिल्ली के बाद अब बिहार चुनावों का परिणाम भी भाजपा के पक्ष में आएगा : राठौड़

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए पुजारियों के मानदेय बढ़ोतरी के निर्णय को ऐतिहासिक बताया और कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण किया था, एक ही धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मंदिरों को कांग्रेस सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया उल्टा मंदिरों पर टैक्स लगाए देवस्थान विभाग ने अंडरटेकिंग करने का काम किया है। सीएम भजनलाल ने पवित्र

स्थल कुंभ में जाकर मंत्रिमंडल की बैठक की और पुजारियों का मानदेय बढ़ाया। वहीं मंदिरों के विकास पर उन्होंने कहा कि मंदिर संस्कार व आध्यात्मिक शक्ति के स्थल हैं और मंदिर जाने के बाद आमजन में आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है। इस दौरान दिल्ली चुनावों के नतीजों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यह सही है असत्य ज्योदा दिन नहीं चल सकता। अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजी देशवासियों की भावनाओं को केजरीवाल ने हथियार बनाया और आम आदमी के नाम का सहारा लेकर दिल्ली की सत्ता हासिल की।

इसके बाद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी आकंट भ्रष्टाचार में डूब गए थे। उनके ऐसे कारनामों को देखकर लगता है कि आम आदमी पार्टी का लंबा भविष्य नहीं है। दिल्ली चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि पीएम नरेन्द्र मोदी ही स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सकते हैं। दिल्ली के बाद अब बिहार के चुनावों में भाजपा जीत का परचम लहराएगी।

विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रहा देश, 2047 तक होगा विकसित : देवनानी

‘भारतीय जीवन बीमा निगम देश की तरक्की और आमजन में सुरक्षा के भाव का महत्वपूर्ण अंग’



राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स की 19वीं त्रैवार्षिकी ऑल इण्डिया कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया।

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि आज का भारत एक वृहद दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। हम विश्वगुरु थे और रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत की अलग पहचान है। वर्ष 2047 तक हम निश्चित रूप से विकसित भारत बन जाएंगे। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स की 19वीं त्रैवार्षिकी ऑल इण्डिया कॉन्फ्रेंस अजमेर में आयोजित हुई। इसमें पूरे देश के भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्मिकों ने भाग लिया।

अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि देश एक वृहद विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 तक हम निश्चित रूप से एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को जो संशक्त नेतृत्व दिया है वह हमें पूरी दुनिया में सबसे मजबूत और शक्तिशाली बना रहा है। उन्होंने एलआईसी कार्मिकों का आभार किया

कि देश के लिए वे भी अपना समपूर्ण योगदान दें। देवनानी ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम देश की तरक्की और आमजन में सुरक्षा के भाव का एक महत्वपूर्ण अंग है। निगम का बीमा यानि सुरक्षा की गारंटी, आमजन को किसी भी स्तर पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि भारत में बड़ी संख्या ग्रामीण आबादी की है। एलआईसी गांवों तक भी अपनी पहुंच बनाने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाकर काम करे और ग्रामीणों को अपनी वित्तीय सुरक्षा के दायरे में ले। पूरे देश में आज 55 से 60 प्रतिशत बीमा मार्केट में एलआईसी का प्रभुत्व है। यह विश्वास एलआईसी ने अपनी शानदार सेवाओं से बनाया है। इस विश्वास को और अधिक मजबूत करें तथा गांवों तक अपनी सेवाओं का लाभ पहुंचाएं।

रावत ने कहा कि ग्रामीण आबादी को बीमित करने से निचले स्तर तक सुरक्षा व खुशहाली बढ़ेगी। गांव का आदमी वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस करेगा तो वह और अधिक जोश व लगाव के साथ देश की तरक्की में अपना योगदान देगा व उत्पादकता को बढ़ाएगा। आयोजन समिति अध्यक्ष सुनील दत्त जैन ने कहा कि युग परिवर्तित हो रहा है, हम भी बदलें। स्वयं भी जागृत हो और देश को भी जागृत करें। पिछले करीब डेढ़ दशक में देश की दशा व दिशा बदली है, हम भी इसमें अपना पूरा योगदान दें। स्वगत अध्यक्ष के रूप में सुरेश सिंह शेखावत ने सभी का स्वागत किया। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स के महामंत्री अतुल पांडे ने संगठन की सोच व कार्यशैली से अवगत कराया।

कार्यक्रम में एनओआईडीब्ल्यू के पदाधिकारी एवं देशभर से आए प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्यानेश प्रजापे सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। संचालन अनुराग मिश्रा ने किया।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रयागराज में की पूजा-अर्चना

- उप मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में सफाईकर्मियों के योगदान को सराहा

प्रयागराज/जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम तट पर स्थित अक्षय वट के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और सकल मंगलकामनाओं की पूर्ति के लिए आस्था का दीप जलाया एवं समस्त विश्व के कल्याण की कामना की।

उन्होंने कहा कि अक्षय वट आज सनातन धर्म के ध्वजवाहक के तौर पर सकल विश्व में अपनी पहचान को पुख्ता कर रहा है। यह वट उस अमर चेतना का परिचायक है, जो हजारों वर्षों से ज्ञान, विज्ञान एवं अध्यात्म के रूप में भारत में प्रवाहित हो रही है। इस दौरान दिया कुमारी ने बड़े हनुमान मंदिर और प्राचीन नागवासुकी मंदिर में भी पूजा-

प्रतिफल है। पूज्य साधु-संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर ईश्वर की अनंत कृपा का अनुभव कर रही हूँ।

उन्होंने कहा कि महाकुम्भ की पवित्रता को बनाए रखने वाले स्वच्छता कर्मी असली नायक हैं। स्वच्छता के इस महान कार्य में उनकी मेहनत और समर्पण से यह महापर्व और भी दिव्य एवं स्वच्छ बना है। आइए, हम सब उनके प्रयासों की सराहना करें और महाकुम्भ मेला क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने में उनका सहयोग करें। उनका योगदान ने केवल महाकुम्भ की भव्यता बढ़ाती है, बल्कि हमें यह सिखाता है कि किसी भी धार्मिक आयोजन को सही अर्थ में पवित्र बनाने के लिए स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अलवर/अलवर। अलवर जिले की बगड़ तिराहा थाना पुलिस ने दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक आईडी से विज्ञापन देकर खिलौनों की होम डिलीवरी पहुंचाने के नाम पर एडवांस के रूप में रकम लेकर ठगी किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से दो एंड्रॉइड मोबाइल और दो सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिनमें ठगी से संबंधित साक्ष्य मिले हैं।

अलवर एसपी संजीव नैन ने बताया कि जिले में ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन आदि के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजपाल सिंह व पुलिस उपाधीक्षक यातायात मुकेश चौधरी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। गठित टीम

साइबर ठगी करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

लगातार ऑनलाइन ठगी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। साथ ही साइबर ठगी से प्रभावित गांवों में दृष्टि देकर साइबर ठगी में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। इसी क्रम में एसएचओ बगड़ तिराहा थाना पुलिस ने दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक आईडी से विज्ञापन देकर खिलौनों की होम डिलीवरी पहुंचाने के नाम पर एडवांस के रूप में रकम लेकर ठगी किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से दो एंड्रॉइड मोबाइल और दो सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिनमें ठगी से संबंधित साक्ष्य मिले हैं।

लगातार ऑनलाइन ठगी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। साथ ही साइबर ठगी से प्रभावित गांवों में दृष्टि देकर साइबर ठगी में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। इसी क्रम में एसएचओ बगड़ तिराहा थाना पुलिस ने दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक आईडी से विज्ञापन देकर खिलौनों की होम डिलीवरी पहुंचाने के नाम पर एडवांस के रूप में रकम लेकर ठगी किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से दो एंड्रॉइड मोबाइल और दो सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिनमें ठगी से संबंधित साक्ष्य मिले हैं।

15 लाख रुपए ठगने वाला फर्जी पुलिस अफसर पकड़ा

—कार्यालय संवाददाता— जयपुर। एयरपोर्ट थाना इलाके में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर युवक से 15 लाख रुपए ठगने के मामले में फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है।

आरोपी खुद को इटैलिजेंस ब्यूरो का डीवाइएसपी बताता था। आरोपी श्रीनिवास राव चौबे दिल्ली का रहने वाला है। वह रामनगरिया इलाके में किए गए का प्लेट लेकर रह रहा था। आरोपी ने अपनी कार पर भारत सरकार की नेम प्लेट लगा रखी है। पुलिस ने आरोपी की कार को जब्त कर लिया है। आरोपी ने जेडीए और वित्त विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर को लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी।

पुलिस के अनुसार तिलक नगर भरतपुर निवासी नितिन ने मामला दर्ज करवाया कि श्रीनिवास चौबे ने उसे व उसके दोस्तों को सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर उससे कई बार में 15 लाख रुपए ठग लिए। रुपए मांगने पर आरोपी पहले तो आनाकानी करता रहा और फिर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

इस पर पीड़ित थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। आरोपी ने प्रति भैंस पांच लाख रुपए लिए थे। आरोपी ने पूछताछ में एक दर्जन से ज्यादा ठगी की वारदात करना कबूल किया है।

- सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी थी रकम
- आरोपी ने अपनी कार पर भारत सरकार की नेम प्लेट लगा रखी थी

आरोपी खुद को इटैलिजेंस ब्यूरो में उच्च पद पर आसीन बताता था। कनाड़ा में नौकरी लगाने के नाम पर व्यक्ति से ठगे 20 लाख : जयपुर। ज्योति नगर थाना इलाके में कनाड़ा में नौकरी लगाने के नाम पर एक व्यक्ति से 20 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस सम्बंध में थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार जनकपुरी प्रथम निवासी शिवजीराम बैरवाने मामला दर्ज करवाया कि चांदनी प्रवीण और हरप्रोटी कोर ने उसे कनाड़ा में जांब लगाने का झांसा दिया।

आरोपियों ने इस बहाने से उससे कई बार में 19 लाख 98 हजार 663 रुपए ले लिए। रुपए लेने के बाद भी आरोपियों ने उसे नौकरी नहीं लगवाई। आरोपी अब रुपए लौटाने से भी इनकार कर रहे हैं। रुपए मांगने पर आरोपी उसे डरा धमका रहे हैं।

कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार पर पुलिस की छापेमारी

जयपुर (कांस)। ज्योति नगर थाना पुलिस ने कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का-बार में कार्रवाई करते हुए मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से कई हुक्के, पाइप, चिलम एवं भारी मात्रा में हुक्का फ्लेवर जब्त किया है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (दक्षिण) दिगंत आनंद ने बताया कि ज्योति नगर थाना पुलिस ने इलाके के धारिवाल चैम्बर के पास स्थित संचालित अनौनसी कैफे पर कार्रवाई की गई है जहां कैफे की आड़ में हुक्का बार चल रहा था। पुलिस को पिछले कुछ दिनों से यहां पर कैफे की आड़ में हुक्का पिलाने की सूचना मिल रही थी। जिस पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और पुलिसकर्मियों को सादा वर्दी में भेज कर इसकी तस्दीक करवाई। इसके बाद पुलिसकर्मियों के इशारा मिलने पर छापा मारा गया। पुलिस ने बिना लाइसेंस के हुक्का पिला रहे कैफे मैनेजर सूरज सिंह निवासी दनिया जिला अल्मोडा (उत्तराखंड) को गिरफ्तार किया। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वहां से हुक्के, पाइप, चिलम एवं भारी मात्रा में हुक्का फ्लेवर जब्त किया है।

26 सीसीटीवी कैमरों का शिलान्यास

जयपुर। मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने विधायक कोष द्वारा प्रदत्त 30 लाख रुपए की लागत से वार्ड 146 शर्मा कॉलोनी, 22 गोदाम में लगाए जाने वाले 26 सीसीटीवी कैमरों का शिलान्यास किया। पार्षद कविता कटियार ने बताया कि आए दिन असामाजिक तत्वों के द्वारा गाडियों के शीशे तोड़े जाते हैं। कैमरे लग जाने से अपराधों पर अंकुश लगेगा। नटवर कुमावत ने बताया कि विधायक सराफ ने विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि आने वाले 5 साल में सभी 26 वार्डों में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके तहत 27 कॉलोनीयों में अभी तक सीसीटीवी कैमरे लगावाये जा चुके हैं एवं 14 कॉलोनीयों में कार्य प्रगति पर है। स्थानीय लोगों एवं विकास समिति के पदाधिकारियों ने सराफ का माला एवं साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद कविता कटियार, पार्षद हिमांशु जैन, महेश सैनी बच्चु, शर्मा कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष शैलेश शर्मा, सचिव मोहनलाल भोजवानी, उपाध्यक्ष योगेश बिरला मौजूद थे।

राज्यपाल ने नासिक पहुंचकर कालाराम मंदिर में भगवान श्रीराम के दर्शन किए



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे रविवार को नासिक स्थित कालाराम मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में विराजित भगवान श्रीराम की काले पाषाण से बनी मूर्ति की पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने भगवान श्रीराम से राष्ट्र की सम्पन्नता और खुशहाली की कामना की।

गोविंद देवजी मंदिर में नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ

जयपुर। प्रयागराज महाकुंभ में आरध्व देव गोविंद जी के आशीर्वाद से लगाए गए गोविंद धाम धरमशाला (शिविर) के समापन रविवार को गोविंद देवजी मंदिर में निशुल्क नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। पूजा-अर्चना कर शिविर के निर्विघ्न रूप से संपन्न होने पर भगवान को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी के साहिब्य में होने महायज्ञ को गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी के विद्वानों की टोली ने संपन्न कराया।

- प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में सेवा देने वाले व्यक्तियों का सम्मान किया

ठिकाना मंदिर श्री गोविंद देवजी के सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने दीप प्रज्वलित कर यज्ञ का शुभारंभ किया। गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी के व्यवस्थापक सोहनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में आचार्य पीठ से गायत्री प्रसाद, डॉ. अजय भारद्वाज, दिनेश भारद्वाज ने प्रज्ञा गीतों और प्रभावी उद्बोधन के साथ यज्ञ के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डाला। गोविंद देवजी, वेदमता गायत्री और गुरु सत्ता का सोशेषोपचार पूजन कर अग्नि प्रज्वलन कर तीन परिचयों में 200 से अधिक श्रद्धालुओं ने यज्ञ देवता को आहुतियों प्रदान की। गायत्री एवं महापुरुंज महामंत्र के अलावा सूर्य, रुद्र, शिव, नवग्रह मंत्रों से भी आहुतियां प्रदान की गईं। देवेश कुमार, सोनव शर्मा, ओम प्रकाश, परी सहित दस लोगों ने सनमंदिन और विवाह दिवस संस्कार भारतीय

संस्कृति के अनुसार मनाया। सभी लोगों ने उनके दीर्घायु और मंगल कामना के लिए पुष्प वर्षा का आशीर्वाद दिया। गोविंद देव जी मंदिर की ओर से इनका दुपट्टा पहना कर और प्रसाद देकर सम्मान किया गया। उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए विशेष आहुतियां प्रदान की गईं। जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने और रोग मुक्ति की कामना के साथ सूर्य गायत्री मंत्र से आहुतियां प्रदान की गईं। प्रयाग कुंभ में सेवा देने वाले मुकेश पारीक, आनंद अग्रवाल, नितिन भारद्वाज, पीयूष शर्मा, गोविंद सिंह, लालचंद सागर सहित अन्य का दुपट्टा धारण कराकर तथा टाकुर जी की छवि भेंट कर सम्मान किया गया।

श्रद्धालुओं का प्रयागराज के कुंभ जल से अभिसिंचन किया गया। महंत संजय गोस्वामी, समाजसेवी चन्द महेश झालानी, प्रभात कुमार शर्मा, अर्चना पातन, सचाय कंवर, राधा अग्रवाल सुनीता गुर्जर, प्रशांत सिंह झाला, वासुदेव दाधीच सहित अनेक यजमानों ने प्रारंभ में देव पूजन किया।

एम.डी. ड्रग बेचते दो तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। करणी विहार थाना पुलिस ने एमडी ड्रग बेचते दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो से दोनों तस्कर एमडी ड्रग की सप्लाई करते थे। जांच-पान की थड़ी पर बैठे युवाओं को ड्रग देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एमडी ड्रग व स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है।

पुलिस उपयुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि करणी विहार थाना पुलिस ने एमडी ड्रग बेचते तस्कर जगदीश विश्वनोई (33) व मनोहर विश्वनोई (25) निवासी सेडवा बाइमेर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी एकता नगर एफ-ब्लॉक गांधीपथ करणी विहार में रहते हैं। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों के कब्जे से 8.79 ग्राम एमडी ड्रग व बिक्री के 18 हजार रुपए बरामद किए हैं।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ड्रग बेचने में यूज स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया है। पूछताछ में आरोपियों ने एमडी ड्रग बाइमेर के धोरीमन्ना से राहुल विश्वनोई से खरीदकर जयपुर में जांच-पान की थड़ी पर बैठे पैकेट में सप्लाई करना कबूल किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी ड्रग तस्करी के मामले दर्ज हैं।

सभी सहकारी पैक्सकर्मियों का पीएफ़ खाता व नियमानुसार पी.एफ. अंशदान कटौती की व्यवस्था करे सरकार : आमेरा पैक्स की आर्थिक समृद्धि व कार्मिक की सेवा सुरक्षा के लिए कैडर गठन माँग प्रस्ताव पारित

जयपुर। सहकारी साख समितियाँ एम्पलाईज यूनियन राजस्थान के जयपुर जिला प्रतिनिधियों की बैठक रविवार को यूनियन के प्रान्तीय अध्यक्ष सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

सहकार नेता आमेरा ने पैक्स प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि बैठक में बताया गया कि, जिले में अधिकांश पैक्स कर्मियों के पीएफ़ खाते नहीं खुले हुए हैं और वेतन से पीएफ़ कटौती होकर जमा नहीं हो रहा है, सेवा निवृत्ति पर पीएफ़ व ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कई पैक्स में कर्मियों को नियमित मासिक वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। सहकार नेता आमेरा ने पैक्स प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि सहकारिता में यह कैसी विडंबना है कि आज आजादी के अमृत काल में 75 वर्ष बाद भी प्रदेश की 8000 पैक्स में कार्यरत स्थाई पैक्स कर्मियों का पीएफ़ खाता तक नहीं खुला हुआ है, न ही पीएफ़ कट रहा है और रिटायरमेंट पर पीएफ़ व ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो रहा है, नियमित मासिक वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि देश के विधान, कानून व श्रम प्रवचन के अनुसार हर दैनिक वेतन भोगी ग्राम/ठाका/बाहरी एजेंसी से लगे मजदूर तक का भी नियमित पी.एफ. व ईएसआई कटौती होती है, मासिक वेतन भुगतान होता है।

उन्होंने कहा कि, जब देश का सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता से समृद्धि का भागीरथी अभियान चलाए हुए है, वहीं देश का पैक्सकर्मियों रोजगार की सुरक्षा, वेतन भुगतान व सामाजिक सुरक्षा, सेवानिवृत्त परिलाभ के लिए तरस रहा है। आमेरा ने प्रदेश की सरकार, सहकारी विभाग व बैंक बंधुओं से सभी जिलों में पैक्स कर्मियों के पी.ए.फ़.खाते खुलवाने व नियमानुसार नियोजता व कार्मिक का वेतन से पी.एफ.अंशदान जमा करवाने को कानूनी व्यवस्था लागू करवाने की माँग की है, अन्यथा इससे अनावश्यक कानून

अवहेलना पर आर्थिक दण्ड व सजा का प्रावधान से कानूनी परेशानी की स्थिति हो सकती है। आमेरा ने सभी पैक्स कर्मियों को पैक्स कम्प्यूटरीकरण को गंभीरता से सफल बनाते हुए सहकारी नवाचार लागू कर पैक्स को आर्थिक समृद्ध बनाने के लिए प्रेरित किया।

बैठक में सहकारी पैक्स कर्मियों की आर्थिक खुशहाली के लिए पीयूष माँग में कैडर गठन व्यवस्था लागू करने, बैंकिंग सहायक भर्ती शीघ्र जारी करने, स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध हटाने, समिति में कार्यरत सहायक व्यवस्थापक को ही व्यवस्थापक के रिक्त पद पर कार्यकारी

- ‘देश का पैक्सकर्मियों रोजगार की सुरक्षा, वेतन भुगतान व सामाजिक सुरक्षा, सेवानिवृत्त परिलाभ के लिए तरस रहा’

व्यवस्थापक का लेन देन का चार्ज दिया जाने, समिति में लगे हुए रिटायर दागी, जाँच संचित, 65वर्ष के व्यवस्थापक को तत्काल हटाया जाने, दो से अधिक समिति का अतिरिक्त कार्यभार से व्यवस्थापक को तत्काल मुक्त करने, मिनी बैंक में नकद लेनदेन पर टीडीएस कटौती की सीमा बढ़ाने पर चर्चा की गई।

इसी प्रकार सरकार से ऋण माफ़ी पर बकाया ब्याज भुगतान करने, नई गठित समिति को कार्यालय के लिए मुफ्त जमीन देने, समिति जमाओ पर ब्याज दर बढ़ाने, ऋण कमीशन बढ़ावती, समिति को पीडीएस का काम देने, किसान को समुचित ऋण राशि दिलवाई जाने के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी माँगों को सहकारी विभाग, सरकार व बैंक प्रबंधन स्तर पर उठाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक को शंकर सिंह नेरुका, आरति सिंघा टोडा, विजय लाल जाट, नागेश, राजकुमार मीणा ने संबोधित किया। सोहन लाल शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।




सहकारी पैक्स यूनियन प्रतिनिधियों की बैठक रविवार को प्रान्तीय अध्यक्ष सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

पीवी सिंधु

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप (बीएएमटीसी) 2025 में भाग नहीं लेंगी। पीवी सिंधु को चार फरवरी को गुवाहाटी में प्रशिक्षण शिविर के दौरान चोट लग गई थी। चोट के कारण सिंधु ने टूर्नामेंट से

अपना नाम वापस ले लिया है। पीवी सिंधु ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया, भारी मन से मैं यह साझा कर रही हूँ कि मैं बीएएमटीसी 2025 के लिए टीम के साथ यात्रा नहीं करूँगी। गुवाहाटी में 4 तारीख को प्रशिक्षण के दौरान, मुझे अपनी हैमरिट्रिंग में खिंचाव महसूस हो रहा है।

क्या आप जानते हैं ?..... एस्टोनिया के बल्लेबाजसाहिल चौहान ने सिर्फ 27 गेंदों में शतक जड़कर टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया।



भारत के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड सबसे मजबूत टीमों में से एक है। क्योंकि बाड़ी प्रतियोगिताओं में यह टीम अपने खेल के शीर्ष पर होती है।
-आर. अश्विन

पूर्व भारतीय गेंदबाज, भारत और न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बोलते हुए।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी



'दिमाग कहां है तेरा' हर्षित राणा की गलती पर बिफर पड़े कप्तान रोहित शर्मा

कटक 9 फरवरी। कटक में भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 304 रन बनाए हैं। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले हर्षित राणा पर रोहित शर्मा जमकर बिफर पड़े। हर्षित राणा दूसरे मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के लपेटे में आ गए। जहां इस मैच में हर्षित राणा ने एक ऐसी हरकत कर दी। जिसके बाद कप्तान खुद पर काबू नहीं रख पाए और युवा खिलाड़ी पर जमकर सुना दीकटक के बाराबती स्टेडियम में खेले जा रहे इस दूसरे वनडे मैच के दौरान हर्षित राणा ने एक भारी गलती कर दी। जिसके बाद रोहित शर्मा को उन पर खतरनाक गुस्सा आ गया। दरअसल, हुआ यूँ कि इंग्लैंड की पारी को 32वां ओवर चल रहा था। जिसे हर्षित राणा डाल रहे थे। इस ओवर में हर्षित ने बेहतरीन गेंदबाजी की और पहली चार गेंदों में कोई रन नहीं दिया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद भी बहिया रही और इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर ने उस गेंद को फॉलो करने के श्रु में खेल दिया। जहां हर्षित राणा ने अपनी गेंद पर फोल्ड करने के बाद विकेट की तरफ जोर से श्रो किया। गेंद विकेटकीपर को बीट करती हुई पीछे की तरफ बाउंड्री लाइन के पार चली गई। जिससे इंग्लैंड को तोहफे में 4 रन मिल गए। इसके बाद रोहित शर्मा का पारा चढ़ गया और वो हर्षित राणा पर गंभीर हुए। उन्होंने राणा को फटकार लगाते हुए कहा कि दिमाग कहां है तेरा इसके बाद हर्षित राणा चुपचाप बॉलिंग एंड पर चले गए।

जल्द जारी होगा आईपीएल 2025 का शेड्यूल

नई दिल्ली, 9 फरवरी। आईपीएल 2025 का आगाज 21 मार्च से होना है। टूर्नामेंट के शेड्यूल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन का फुल शेड्यूल इस हफ्ते जारी हो सकता है। टूर्नामेंट का पहला मैच पिछले सीजन की फाइनलस्ट टीमों के बीच आयोजित होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले सीजन का खिताब जीता था। उसने फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। आईपीएल 2025 का शेड्यूल जल्द ही जारी हो सकता है। हालांकि, इसको लेकर अभी तक किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। टूर्नामेंट का आगाज 14 मार्च होना था। लेकिन बाद में इसे आगे बढ़ा दिया गया था। अब ये 21 मार्च से खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच पिछले सीजन की फाइनलस्ट के बीच खेला जाता है। लिहाजा इस बार भी ये परंपरा आगे बढ़ सकती है। आईपीएल 2024 का फाइनल कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेला गया था। इस बार आईपीएल 2025 का पहला मैच इन दोनों टीमों के बीच खेला जा सकता है। ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आयोजित हो सकता है।

राष्ट्रीय खेल: अल्मोड़ा पुलिस की महिला जवानों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से बरसा सोना

अल्मोड़ा/नैनीताल, 9 फरवरी। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में अल्मोड़ा पुलिस की महिला जवानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और खूब सोना बरसा है। अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पीचा के अनुसार मार्टिन पेंटाथलॉन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए महिला कांस्टेबल ममता न स्वर्ण पदकों को हैट्रिक लगाई है जबकि महिला कांस्टेबल मंजू ने एक स्वर्ण के साथ एक कांस्य पदक अर्जित किया है। पीचा के अनुसार दोनों महिला जवान अल्मोड़ा पुलिस लाइन में तैनात हैं। कांस्टेबल ममता खाती ने मार्टिन पेंटाथलॉन लेजर रन प्रतियोगिता के व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड जीता है तथा सक्षम सिंह को जोड़ी के मिक्सड रिप्ले की टीम इवेंट में भी गोल्ड जीता है।

हॉकी में उड़ीसा ने मणिपुर को चार शून्य से हराया

हरिद्वार, 9 फरवरी। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों के तहत रविवार को हरिद्वार में खेले गए हॉकी लीग मैच में उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मणिपुर की टीम को चार शून्य से हरा दिया। जिला क्रोडा अधिकारी शाबाली गुर्गं ने बताया वंदना कटारिया स्टेडियम में हॉकी लीग मैच चल रहे हैं। इसमें नौ पुरुष वर्ग की टीम में तथा आठ महिला वर्ग की टीम में भाग ले रही है। उन्होंने कहा कि हॉकी स्पर्धा का 12 फरवरी को सेमीफाइनल होगा जबकि 13 फरवरी को फाइनल मैच होगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के रहने, खाने एवं आने जाने की व्यवस्था की है जिससे सभी खिलाड़ी संतुष्ट हैं। उड़ीसा टीम के कप्तान दीपशांत का कहना है कि हमने आज बेहतर प्रदर्शन किया और मणिपुर को चार शून्य से हराया।

किरियन जैक्वेट ने जीता चेन्नई ओपन एकल का खिताब

नूंगम्बक्कम (तमिलनाडु), 9 फरवरी। फ्रांस के किरियन जैक्वेट ने रविवार को फाइनल में स्वीडन के इलियास यमेर को हराकर चेन्नई ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता। आज यहां एसडीएटी टेनिस स्टेडियम में खेले गये मुकाबले में विश्व में 273वें नंबर के खिलाड़ी किरियन जैक्वेट ने रैंकिंग में 332वें स्थान पर काबिज इलियास यमेर को 7(7)-6(1), 6-4 से हराकर अपना पहला एटीपी एकल टेनिस खिताब जीता। जैक्वेट ने फाइनल के शुरूआती गेम में यमेर को सर्विस तोड़कर मैच की सकारात्मक शुरुआत की। इसके बाद आगे तीन गेम तक अपनी सर्विस बरकरार रखी। जैक्वेट ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 7-1 से जीत दर्ज की। फ्रांसीसी खिलाड़ी का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने दूसरे सेट के चौथे गेम में यमेर की सर्विस तोड़कर खुद को ड्राइवर की सीट पर पहुंचा दिया। यमेर ने वापसी की और सातवें गेम में जैक्वेट की सर्विस तोड़ी लेकिन यह काफी नहीं था।

रोहित फॉर्म से भारत ने इंग्लैंड को चार विकेट से हराया, जड़ा 32वां शतक

कटक 9 फरवरी। रवींद्र जडेजा (तीन विकेट) की धाक गेंदबाजी के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा (119) की शतकीय, शुभमन गिल (60) और अक्षर पटेल (नाबाद 41) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत रविवार को दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड को 33 गेंदें रहते चार विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है।

इंग्लैंड के 304 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी रोहित शर्मा और शुभमन गिल की भारतीय सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी की। 17वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने शुभमन गिल को आउट कर इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाई। गिल ने 52 गेंदों में नौ चौके और एक छक्का लगाते हुए (60) रन बनाये। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये विराट कोहली एक बार फिर विफल रहे। उन्हें आदिल रशीद ने (पांच) रन पर पवेलियन भेज दिया। इस दौरान रोहित शर्मा एक छोर पर गंटे रहे और उन्होंने अपना 32वां शतक पूरा किया।

30वें ओवर में लियम लिंविंगस्टन ने रोहित को आदिल रशीद के हाथों कैच आउट कराकर भारत को बड़ा झटका दिया। रोहित ने 90 गेंदों में 12 चौके और सात छक्के लगाते हुए (119) रनों की पारी खेली। 37वें ओवर में अपने अर्धशतकी की ओर बढ़ रहे श्रेयस अय्यर रनआउट हुये। श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों तीन चौके और एक छक्का लगाते हुए (44) रन बनाये। जेमी ओवर्टन की गेंद पर साँट के एल लुहल (10) का कैच पकड़ा।

हार्दिक पंड्या (10) रूप में भारत का छठा विकेट गिरा। उन्हें गस ऐटकिंसन ने आउट किया। भारत ने 44.3 ओवर में 308 रन बनाकर मुकाबला चार विकेट से जीत



लिया। अक्षर पटेल (41) और रवींद्र जडेजा (11) रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड की ओर से जेमी ओवर्टन ने दो विकेट लिये। आदिल रशीद, गस ऐटकिंसन और लियम लिंविंगस्टन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे

पहले आज यहां बाराबती स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी फिल साँट और वेन डकेट की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 81 रन जोड़े। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फिल साँट (26) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये जो रूट ने बेन डकेट के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। 16वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने बेन डकेट को आउटकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। बेन डकेट ने 56 गेंदों में 10 चौके लगाते हुए (65) रनों की पारी खेली। हैरी ब्रूक (31) को हर्षित राणा ने और कप्तान जॉस बटलर (34) को हार्दिक पंड्या ने आउट किया। इंग्लैंड ने शुरुआती 10 ओवरों में जहां तेजी के साथ आठ रन से अधिक की औसत के साथ रन बटोरें, वहीं उसके बाद भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे उसके रनों की रफ्तार धीमी होनी चली गई। 43वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने जो रूट को आउटकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। जो रूट ने 72 गेंदों में छह चौकों की मदद से (69) रन बनाये। इसके बाद जडेजा ने जेमी ओवर्टन (छह) को भी अपना शिकार बना लिया। गस ऐटकिंसन (तीन) को शमी ने आउट किया। आठवें विकेट के रूप में आदिल रशीद (14) रनआउट हुये। आखिरी ओवर में लियम लिंविंगस्टन (41) और मार्क वुड (रन्य) को आउट हुये। इंग्लैंड की पूरी टीम 49.5 ओवर में 304 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से रवींद्र जडेजा ने तीन विकेट लिये। मोहम्मद शमी, हर्षित राणा, हार्दिक पंड्या और वरुण चक्रवर्ती ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

जयपुर बॉयज और गर्ल्स फुटबाल अकादमी ने रियान अजमेर को 6-0 से हराया

जयपुर, 9 फरवरी। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वाधान में एस एस जैन सुबोध शिक्षा समिति के प्रांगण में जारी आर लीग यूथ अंडर-13 फुटबॉल प्रतियोगिता में पांच मैच खेले गए। जयपुर एलिट फुटबाल क्लब जयपुर और जयपुर यूनाइटेड फुटबाल क्लब के बीच खेला गया जिसमें जयपुर एलिट क्लब ने मैच 6:0 से जीत लिया। दूसरा मैच चैंपियन मेकर्स और रॉयल फुटबाल स्कूल के बीच खेला गया दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया व निर्धारित समय तक 7-1 से मैच चैंपियन मेकर्स अजमेर ने जीत हासिल की। तीसरे मैच



के मध्य खेला गया जिसमें अंतिम समय तक ब्रदर्स यूनाइटेड ने 6:0 मैच जीत लिया। अंतिम मैच में जयपुर बॉयज और गर्ल्स ने रियान फुटबॉल क्लब अजमेर को 6:0 से पराजित किया। मुख्य अतिथि के तौर पर गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे दिलीप पुनिया, भवानी सिंह भाटी। राजस्थान फुटबाल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि 19 जनवरी से शुरू हुई आर लीग में कुल 90 मैचों में से जिसमें अब तक 35 मैच हो चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट मैच में नौ विकेट से हराया

गाले, 9 फरवरी। मैथ्यू कुनमन और नेथन लायन (चार-चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को श्रीलंका को नौ विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। श्रीलंका के कल आठ विकेट मात्र 211 रन से आगे खेलना शुरू किया। आज सुबह के सत्र में अभी श्रीलंका ने कल के स्कोर में छह रन जोड़े थे कि नेथन लायन ने कुसल मेंडिस (50) को आउटकर ऑस्ट्रेलिया को नौवीं सफलता दिलाई। इसके बाद बो वेबस्टर ने लाहिरी कुमारा (नौ) को आउट कर श्रीलंका की दूसरी पारी को 231 के स्कोर पर अंत कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 75 रनों का लक्ष्य मिला। जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 17.4 ओवर में एक विकेट



गवां कर हासिल कर अपनी दूसरी टेस्ट जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र विकेट ट्रैविस हेड (20) रन के रूप में गिरा। उन्हें प्रभात जयसूर्या ने आउट किया। उस्मान ख्वाजा (27) और मार्नस लाबुशेन (26) रन बनाकर नाबाद रहे। 156 रनों की शानदार पारी खेलने वाले एलेक्स कैरी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' और सीरीज में 272 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' से नवाजा गया।

टीम जयपुर लीला ने जीता द लीला महाराजा सवाई मान सिंह पोलो कप

शमशीर अली ने हैट्रिक सहित शानदार 5 गोल, वॉटसन ने 3 गोल कर टीम को जीताया



जयपुर पोलो सीजन 2025 जयपुर, 9 फरवरी। जयपुर पोलो सीजन के अंतर्गत रविवार को राजस्थान पोलो क्लब ग्र्राउंड पर द लीला महाराजा सवाई मान सिंह पोलो कप (08 गोल) का फाइनल मैच खेला गया। यह रोमांचक मुकाबला टीम जयपुर लीला और ऑल स्टार्स पोलो टीम, बाय सुहाना के बीच हुआ। इस कड़ी टक्कर में जयपुर लीला ने ऑल

स्टार्स पोलो टीम, बाय सुहाना को 9-8 के स्कोर से शिकस्त देकर कप अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब डॉ शिवांगी जय सिंह ने जीता। इस अखबर पर द लीला पैलेस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के सीईओ, अनुराग भट्टनागर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विजेता टीम जयपुर लीला को ट्रॉफी प्रदान की। विजेता टीम जयपुर

लीला से शमशीर अली ने शानदार 5 गोल कर टीम को जीत दिलाई। वहीं लांस वॉटसन ने 3 गोल और एचएच महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने 1 गोल किया। टीम से महेंद्र सिंह भी खेलें। इसी प्रकार, ऑल स्टार्स पोलो टीम, बाय सुहाना की ओर से मटियास वायल ने 5 गोल और ध्रुवपाल गोदार ने 3 गोल किए। टीम में अंगद कलान और डॉ शिवांगी जय सिंह भी शामिल थे।

चोटिल एनरिक नॉर्टे चैंपियंस ट्रॉफी से हुए बाहर

प्रितोरिया, 9 फरवरी। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्टेजे चोट के कारण चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गये है। दक्षिण अफ्रीका ने चोटिल नॉर्टेजे की जगह ऑलराउंडर कॉबिन बोश को चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जाहद दी है। इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ चल रही त्रिकोणीय सीरीज के लिए भी टीम में शामिल किया गया है। कॉबिन बोश ने पिछले वर्ष दिसंबर में पाकिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। इससे बाद उन्होंने बॉक्सिंग डे टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ ही टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और नाबाद 84 रन बनाने के साथ-साथ पांच विकेट भी झटकें। उन्होंने हाल ही में एसए20 के दौरान शानदार गेंदबाजी करते हुए आठ मैचों में 17.36 की औसत से 11 विकेट लिए और अपनी टीम एमआई केपटाउन को खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आल इंडिया टी20 डे -नॉईट टूर्नामेंट हेतु राजस्थान टीम रवाना

जयपुर 9 फरवरी। आरसीए घडहॉक क्रमेटि सदस्य धर्मेन्द्र सिंह शेखावत के अनुसार राजस्थान क्रिकेट संघ राज्य के युवा खिलाड़ियों को

पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम की पोल खुली, खराब लाइटिंग के कारण रचिन रविंद्र को लगी चोट?



लाहौर, 9 फरवरी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच शनिवार को ट्राईसीरीज का पहला मैच खेला गया। इस मुकाबले में ऑलराउंडर में रचिन रविंद्र चोटिल हो गए। उनके चोटिल होने के बाद पाकिस्तान की मेजबानी पर सवाल उठ गए हैं। सोशल मीडिया पर फैस आरोप लगा रहे हैं कि रचिन रविंद्र गद्दाफी की खराब लाइटिंग के कारण चोटिल हुए हैं। ट्राईसीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी करते हुए 330 रन बनाए। इसके बाद पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। मैच के 38वें ओवर में रचिन रविंद्रनाक हादसे के शिकार हुए। न्यूजीलैंड के लिए ये ओवर माइकल ब्रेसवेल डाल रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर पाकिस्तानी बल्लेबाज खुशदिल शाह ने डीप स्क्वायर पर दमदार शाँट

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने दुबई में खरीदा नया घर, करोड़ों में है कीमत



नई दिल्ली, 9 फरवरी। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा कई सालों से दुबई में रह रही हैं। हालांकि, वे भारत भी आती जाती रहती हैं। सानिया का दुबई में पहले से ही एक घर है वहीं उन्होंने दोबारा दुबई में करोड़ों का घर खरीदा है। सानिया ने कलॉय यूथयुव चैनल पर बताया कि वे कई सालों से टेनिस खेल रही हैं। इस कारण से वे सहूलियत के लिए दुबई में ही रहती हैं। हालांकि, सानिया बीच-बीच में भारत भी आती रहती हैं। सानिया ने अपने दुबई वाले घर का इंटीरियर खुद ही डिजाइन किया है। सानिया के घर का बाहरी हिस्सा सफेद रंग का है। इसके साथ ही अंदर की दीवार पर हाथी का प्रोप लगाया रखा है। ये गोल्डन रंग का है। साथ ही इसमें और भी महंगी चीजें लगाई गई हैं। सानिया के लिविंग रूम में बड़ा डायनिंग टेबल है। इसकी कीमत लाखों में है। अगर पूरे घर की बात करें तो ये करोड़ों रुपये का है। हालांकि, इसकी असल कीमत का पता नहीं चल पाया है। सानिया अपने जीवन में काफी व्यस्त रहती हैं। वे बिजनेस भी करती हैं उनकी टेनिस एकेडमी भी है।

मुंबई इंडियंस ने 20 लीग पर जमाया पहली बार कब्जा

नई दिल्ली, 9 फरवरी। आईपीएल के बाद अब दुनियाभर में टी20 लीग्स में भी मुंबई इंडियंस का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। एमआई ने अपना 11वां टी20 खिताब 20 लीग का चैंपियन बनकर जीता। दो बार की चैंपियन सनराइजर्स इस्टर्न केप को हराकर एमआई केपटाउन ने पहली बार 20 लीग पर अपना कब्जा जमाया है। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस के कैबिनेट में एक और ट्रॉफी जुड़ चुकी है। बात एमआई की कामयाबी की करें तो 5 आईपीएल खिताब के अलावा ये फ्रेंचाइजी दो चैंपियंस लीग टी20 ट्रॉफी (2011, 2013) एक डब्ल्यूएल खिताब (2023), एक एमएलसी (2023) और एक आईएलटी20 2024 ट्रॉफी भी अपने नाम की है। बावजूद मुकाबले की करें तो टॉस

अली अमन इलाही ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में आयोजित शॉटगन की क्ले पिज्ज ट्रैप इवेंट में रजत पदक जीता



जयपुर, 9 फरवरी। राजस्थान राज्य की शूटिंग टीम के खिलाड़ी अली अमन इलाही ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में आयोजित शॉटगन की क्ले पिज्ज ट्रैप इवेंट में रजत पदक हासिल किया है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सभी राज्यों से हजारों की संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया जिसमें राजस्थान के निशानेबाज ने असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा बनाया। इन निशानेबाजों की उपलब्धियों कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और राजस्थान में शूटिंग खेलों की बढ़ती प्रमुखता का प्रमाण है। जिससे राष्ट्रीय शूटिंग परिदृश्य में एक पावरहाउस के रूप में राजस्थान राज्य की प्रतिष्ठा मजबूत हुई और प्रभावशाली उपलब्धियों ने राज्य को गौरवान्वित किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों, जिसमें पूरे भारत के शीर्ष निशानेबाजों से कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई, राजस्थान के एथलीटों के लिए शूटिंग खेलों में उत्कृष्टता के लिए अपनी शक्ति और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट मंच था और भविष्य में भी रहेगा।

राजस्थान राइफल एसोसिएशन (आरआरए) ने एथलीटों को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ उन्हें बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो व उच्च स्तरीय प्रदर्शन कर राज्य व देश का नाम रोशन कर सकें। इसी कड़ी में आगामी 11 फरवरी से रायपुर में आयोजित होने वाली राजस्थान टीम आज रायपुर के लिए रवाना हुई।

'महाकुंभ जैसा अनुभव मातृकुंडिया में आकर हो रहा है'

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मातृकुंडिया में महादेव के नये मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया



उपराष्ट्रपति डॉ. जगदीप धनखड़ ने चित्तौड़गढ़ में अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट समाज महासभा संस्थान के मातृकुंडिया धाम में महादेव के नवीन मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया और पूजा-अर्चना की।

जयपुर, 9 फरवरी। उपराष्ट्रपति डॉ. जगदीप धनखड़ ने चित्तौड़गढ़ में अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट समाज महासभा संस्थान के मातृकुंडिया धाम में महादेव के नवीन मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया और आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान अन्नदाता हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने समाज में बड़ी संख्या में माता और बहनों की उपस्थिति देखकर कहा कि समाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, माताओं और बहनों को आगे लाकर स्वावलंबी बनाना

■ चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध धाम मातृकुंडिया में अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट समाज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है।

होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश किसान दिवस की रजत जयंती मना रहा है, किसान अन्नदाता हैं और वह देश के विकास की पूंजी है। उन्होंने किसानों के विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी रखने एवं उनका लाभ उठाने की बात भी कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में

वे महाकुंभ में डूबकी लगाकर आए हैं ऐसा ही अनुभव उन्हें मेवाड़ के हरिद्वार, मातृकुंडिया में आकर हो रहा है। करीब 2.5 वर्ष पहले वह इस धरा पर आए थे और समाज के प्रयास से उन्हें सामाजिक न्याय मिला।

कार्यक्रम के प्रारंभ में मेवाड़ जाट समाज के अध्यक्ष माधव लाल जाट ने मला पहनाकर एवं हल भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद सीपी जोशी, कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष एवं आमजन उपस्थित थे।

चित्रकूट के श्रद्धालुओं की बस पलटी, 20 घायल

चित्रकूट, 9 फरवरी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के थाना रैपुरा अंतर्गत प्रयागराज से चित्रकूट आ रही श्रद्धालुओं से भरी प्राइवेट बस का टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें 20 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए।

■ झारखंड के रहने वाले श्रद्धालुओं की प्राइवेट बस टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई।

पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बस में सवार सभी 70 श्रद्धालु झारखंड के रहने वाले हैं और प्रयागराज में स्नान कर चित्रकूट दर्शन करने के लिए आ रहे थे।

फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से ग्राम प्रधान द्वारा सभी को तत्काल उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है उनके खाने-पीने की व्यवस्था स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है।

'भाजपा व आरएसएस लोगों को धार्मिक आधार पर बांट रही है'

डीएमके व गठबंधन के 11 दलों ने संयुक्त बयान में धर्मनिरपेक्षता व एकता कायम रखने का संकल्प लिया

चेन्नई, 09 फरवरी। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कणगम (द्रमुक) के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन सैक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (एस.पी.ए.) के नेताओं ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों पर लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने का आरोप लगाया और धर्मनिरपेक्षता और लोगों की एकता को कायम रखने का संकल्प लिया। उन्होंने द्रमुक महासचिव और जल संसाधन मंत्री दुर्इमुर्गन और एसपीए के 11 अन्य गठबंधन दलों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त बयान में कहा कि तमिलनाडु भारत के बहुलवाद और धार्मिक सद्भाव के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है।

■ उन्होंने कहा कि भगवान मुरुई के छः निवासों पर सभी धर्मों के लोग पूजा करते हैं।

■ तमिलनाडु के सत्तारूढ़ धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन ने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद व अजमेर दरगाह के रूप में विभाजनकारी राजनीति करने वालों का अगला लक्ष्य तमिलनाडु है।

बयान में कहा गया है कि इसका प्रमाण यह है कि राज्य में सभी धर्मों के लोग सभी पूजा स्थलों पर पूजा करते हैं जिनमें भगवान मुरुई के छह निवासों में से एक पलानी की पहाड़ी पर स्थित पलानीदावर मंदिर, मद्रुई मीनाक्षी अम्मन मंदिर, अत्राई वेल्लकौमी मंदिर, नागोर दरगाह और इरवाडी दरगाह शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कुछ संगठन लगातार धार्मिक मतभेद पैदा करने और राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों, आरएसएस, विहिप और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों के लिए लोगों को धार्मिक आधार पर

व्यवस्थित रूप से बांटना और उससे राजनीतिक लाभ प्राप्त करना एक दिनचर्या बन गई है।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भी पिछले अनाद्रम्यक शासन के दौरान भाजपा के समर्थन से छोटे-छोटे दक्षिणपंथी संगठन उभरने लगे हैं और आगे बढ़ने लगे हैं। पिछले तीन वर्षों से दबाए गए लोगों ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी विभाजनकारी राजनीति शुरू कर दी है।

नेताओं ने बयान में जनता से अपील करते हुए आरोप लगाया, वे भाजपा के चुनावी लाभ को चुनाने के लिए तमिलनाडु की एकता को तोड़ने की योजना बना रहे हैं और साजिशें रच रहे हैं।

सड़क दुर्घटना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) थे। स्नान के बाद लौटते समय यह भीषण हादसा हो गया। हादसे में रामकृष्ण की पत्नी, उनके साढ़ू-साली और बोलरो चालक अनिल प्रधान की मौत हो गई। बोलरो में सवार 3 अन्य लोग सुरक्षित हैं।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ लोग घायल हो गए।

पुलिस ने घायलों को तुरंत सौएससी बधनी पहुँचाया, जहाँ से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।

पुलिस ने घायलों को तुरंत सौएससी बधनी पहुँचाया, जहाँ से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं के निधन की खबर से मन व्यथित है।

श्रीलंका ने 14 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार किये

रामनाथपुरम (तमिलनाडु), 09 फरवरी। श्रीलंकाई नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा (आईएमबीएल) का कथित तौर पर उल्लंघन करने और अपने क्षेत्रीय जल में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में रविवार को 14 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया और दो मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाएं जब्त कर लीं।

मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने यहां बताया कि रामेश्वरम, थंगाफुल्लम और रामनाथपुरम के पंवन के रहने वाले मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने एक विशेष अभियान के दौरान उस समय गिरफ्तार किया, जब वे पनार के उत्तर में मरुद्वी क्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे। गिरफ्तार मछुआरों और जब्त नौकाओं को इंरानलिवु द्वीप ले जाया गया और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए सहायक

■ इन मछुआरों पर समुद्री सीमा का उल्लंघन तथा अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप है।

मत्स्य निदेशालय, किलिनोच्ची को सौंप दिया गया।इसके साथ ही, श्रीलंकाई समुद्री बलों द्वारा इस वर्ष गिरफ्तार किये गये भारतीय मछुआरों की संख्या 89 हो गयी है और 10 भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाएं भी जब्त की गयी हैं। इस बीच, रामेश्वरम में विभिन्न मछुआरा संघों के नेताओं ने गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की और केंद्र सरकार से अपील की कि वह जेल में बंद मछुआरों तथा उनकी नौकाओं की तत्काल रिहाई के लिए उचित कदम उठाये।

'युवाओं को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पेट भरने का काम भारत का किसान कर रहा है। आज धाकड़ समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन मूल रूप से आज भी खेती किसानों से ही जुड़ा है। कार्यक्रम के दौरान भगवान धरणीधर, भारत माता और वंदे मातरम के जयकारों से आसमान गूंजता रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मंच पर आते ही कहा कि भगवान धरणीधर के वंशजों अपनी मुट्ठी बांधकर जोर से जयकारा लगाओ। उन्होंने भगवान गिर्राज धरण का भी जयकारा लगाया।

कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि धाकड़ समाज को जयपुर में अपनी सामाजिक गतिविधियां करने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से वहां भूखंड उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वहीं कोटा में अपनी शैक्षणिक गतिविधियां करते हुए एक स्थायी प्रकल्प स्थापित करने का बीड़ा उठाना चाहता है। जिसके लिए भी सरकार भूखंड समेत विभिन्न सहयोग प्रदान करे।

झांसी में पुलिस ने एक करोड़ रूपये का गांजा पकड़ा

पुलिस की कार्यवाही में दो गांजा तस्कर भी पकड़े गए, जो आगरा जिले के रहने वाले हैं

झांसी, 09 फरवरी। उत्तर प्रदेश में झांसी की बबीना थाना पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से दो कुंतल दो किलो 660 ग्राम गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अनुमानित अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग एक करोड़ बताया जा रहा है।

क्षेत्राधिकारी शहर (सीओ सिटी) रामवीर सिंह ने रविवार को बताया कि मुखबिर की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सुधा सिंह तथा बबीना थाना प्रभारी और एनटीएफ प्रभारी चंदन पाण्डेय की संयुक्त टीम ने एनएच 44 पर बबीना टोल प्लाजा से लगभग पांच किलोमीटर पहले वाहनों की चेकिंग शुरू की। चेकिंग के दौरान

■ मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने बबीना टोल प्लाजा से पांच किलोमीटर पहले सघन चेंकिंग शुरू की। संदिग्ध गाड़ी को रोका गया तथा चेंकिंग में अदरख के बीच छुपाकर रखा दो कुंतल दो किलो 660 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

गाड़ी में अदरख के बीच छुपाकर रखा गया दो कुंतल दो किलो 660 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग एक करोड़ है। यह गांजा उड़ीसा ने लाया जा रहा था और तस्कर इसे आगरा में बेचने के लिए ले जा रहे थे। बबीना थाना पुलिस ने दो गांजा तस्करों, सुभाष निवासी ग्राम रोहता थाना सदर बाजार जनपद आगरा और

दिनेश शाह, निवासी नगला रामबल कालिंदी विहार थाना एमदाौला जनपद आगरा को गिरफ्तार किया है।

महाकुंभ में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कुम्भ मेले में पहुंचकर अपनी खुशी जाहिर की और केंद्र एवं राज्य सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना की। जयाप्रदा ने कहा, "मैं बहुत खुश हूँ"

■ उन्होंने कहा, एक बार फिर भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह नेताओं, वकीलों, नागरिक समाज के सदस्यों, मीडिया कर्मियों और युवाओं सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करे तथा कम से कम जब तक वे जेल में हैं, तब तक उनके अधिकारों का सम्मान करे और उन्हें कानून के अनुसार बहाल करे।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने घोषणापत्र में किये गये वादों का सम्मान करे और इन कैदियों को रिहाई तथा राहत के लिए काम करे।

■ खट्टर ने कहा, केजरीवाल की आदत है, अपनी बात को दूसरे के पाले में डालने की। केजरीवाल ने पहले कहा था कि यमुना साफ नहीं कर पाया तो 2025 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। पर, इस बार उन्होंने यमुना को जहर मिलाए का आरोप लगा दिया।

इसी दौरान देश में अवैध बांग्लादेशियों और उन्हें यहां से विष्णुदत्त शर्मा भी उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) से अधिक समय तक रहेगी। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे।

राष्ट्रपति का यह दौरा ने केवल प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक होगा, बल्कि देशभर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रेरणादायी क्षण होगा। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर कर दी गई है।

लखनऊ में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लगाया है कि पर के अंदर बनाए गए चर्च में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हंगामे की मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और चर्च में मौजूद लोगों को पृथक्छा के लिए हिरासत में लिया।

क्षेत्र वासियों का आरोप है कि बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। हंगामे की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची।

यह मामला राजधानी लखनऊ के छोटा भवत्वा थाना क्षेत्र का है। लोगों को रेस्क्यू करने के बाद गोमतीनगर एक्सटेंशन की पुलिस जांच में जुटी है।

लेबनान, सीरिया की गोलीबारी का उचित जवाब देगा

राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने उत्तरी व पूर्वी सीमा पर तैनात सैन्य इकाइयों को जवाबी गोलीबारी करने का निर्देश दिया

बेरुत, 09 फरवरी। लेबनानी सेना ने शनिवार को कहा कि उसने सीरियाई सीमा पर तैनात सैनिकों को सीरियाई क्षेत्र से होने वाली गोलीबारी का जवाब देने का आदेश दिया है। सेना ने एक बयान में कहा कि उसने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन के निर्देशों पर कार्रवाई की है, जिसमें उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर सैन्य इकाइयों को सीरियाई क्षेत्र से आने वाली और लेबनानी क्षेत्रों को निशाना बनाने वाली गोलीबारी के स्त्रोतों का जवाब देने का आदेश दिया गया है।

बयान में कहा गया है कि हाल की झड़पों के बाद इकाइयों ने उचित हथियारों के साथ जवाब देना शुरू कर दिया है, जिसमें कई लेबनानी क्षेत्रों में गोलाबारी देखी गई।

नामीबिया के राष्ट्रपति नुजोमा का निधन

विंडहोक, 09 फरवरी। नामीबिया के संस्थापक राष्ट्रपति सैम नुजोमा का शनिवार को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देश के राष्ट्रपति नांगेलो एमुम्बान्वा ने रविवार सुबह एक बयान में यह घोषणा की। एमुम्बान्वा ने कहा कि पिछले तीन हफ्तों से, संस्थापक अध्यक्ष को खराब स्वास्थ्य के कारण चिकित्सा उपचार और निगरानी के लिए राजधानी विंडहोक में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

विंडहोक, 09 फरवरी। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। शनिवार को दिल्ली चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए, जिसमें जनता का आशीर्वाद भाजपा को पूर्ण बहुमत के रूप में मिला है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। अब जीत के बाद भाजपा नेताओं ने उपराज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा है। भाजपा के नेता एलजी से मुलाकात के बाद दिल्ली में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

ज्ञातव्य है कि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी हुई है। आम आदमी पार्टी को इस बार हार मिली है। दिल्ली में हारने के बाद आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दिल्ली के राज्यपाल को सौंप दिया। आतिशी आज सुबह अपने आवास से निकलीं और राजनिवास जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा एलजी को सौंपा।

करारी हार के बाद रविवार को अरविंद केजरीवाल के आवास पर पार्टी के विधायकों की एक अहम बैठक हुई।

■ लेबनान ने सीरिया की सीमा पर नये स्थानों पर सेना तैनात कर दी है। सीमा पर सेना के निगरानी टावर पर सीरिया से तोप के गोले दागे गये, पर केवल भौतिक क्षति हुई।

लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी (एनएनए) ने सीरियाई सीमा के पास हमले के बाहरी इलाके में नए स्थानों पर सेना की विस्तारित तैनाती की सूचना दी। इसमें कहा गया है कि सेना के निगरानी टावर पर कथित तौर पर सीरिया से आए तोपखाने के गोले से हमला किया गया, जिससे केवल भौतिक क्षति हुई। हमले त्रिजले में नगर पालिकाओं ने एक बयान जारी कर सीरिया से लेबनानी गांवों पर बार-बार हमलों के

बाद नागरिकों की सुरक्षा के लिए लेबनानी राज्य से हस्तक्षेप करने का आ आ किया। एनएनए ने यह भी बताया कि उत्तरी सीमा क्षेत्र में गोलाबारी में घायल होने के बाद लेबनानी रेड क्रॉस ने आजु लोगों को हमले के अस्पतालों में पहुंचाया था। कहा गया है कि सीरिया से गोलाबारी ने जकियाह, अर्द अल-सबिया, सहलात अल-मा और कानाफेज शहरों पर हमला किया, जिससे नागरिक घायल हो गए।

भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी

■ इस कार्य के लिये उपराज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा गया है।

बैठक में पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की और उन्हें आगामी कार्यों के लिए दिशा-निर्देश दिए। कालकाजी सीट से विधायक आतिशी ने बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सभी विधायकों को जनता की सेवा में पूरी तरह से समर्पित होने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने लिखा, "अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की। सभी विधायकों को जनता की सेवा करने का निर्देश दिया। भाजपा ने वादा किया है कि पहली कैबिनेट में महिलाओं के लिए 2500 रूपये प्रतिमाह देने का प्रस्ताव पास करेंगे, और 8 मार्च से हर महिला के खाते में ये पैसे आने शुरू होंगे। हम भाजपा से यह वादा पूरा करवायेंगे।"